



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

वार्षिक लेखे
ANNUAL ACCOUNTS
2 0 2 4 - 2 0 2 5

वार्षिक लेखे

ANNUAL ACCOUNTS

2 0 2 4 - 2 0 2 5



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110 002

Toll-Free No.1800-11-2526

Website: www.esic.gov.in

[f](#) @esichq [X](#) @esichq [v](#) @esichq [i](#) @esichq [y](#) @esichq [in](#) @esichq [6](#) @esichq



वार्षिक लेखे 2024-2025

विषय सूची

| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--------------|
| 1 | 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र | 4 |
| 2 | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा | 6 |
| 3 | अनुसूची 1-समग्र / पूंजीगत निधि | 8 |
| 4 | अनुसूची 2-आरक्षितियाँ एवं अधिशेष | 8 |
| 5 | अनुसूची 3-उद्दिष्ट निधियाँ | 10 |
| 6 | अनुसूची 4-प्रतिभूत ऋण एवं उधार | 12 |
| 7 | अनुसूची 5 - प्रतिभूत रहित ऋण और उधार | 14 |
| 8 | अनुसूची 6 -आस्थगित ऋण देयताएं | 14 |
| 9 | अनुसूची 7-वर्तमान देयताएं और प्रावधान | 16 |
| 10 | अनुसूची 8- स्थायी परिसंपत्तियाँ | 18 |
| 11 | अनुसूची 9- उद्दिष्ट निधियों से निवेश | 20 |
| 12 | अनुसूची 10- निवेश- गैर उद्दिष्ट-अक्षय निधियाँ / (अन्य) | 20 |
| 13 | अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियां आदि | 22 |
| 14 | अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी) | 24 |
| 15 | अनुसूची 12- अंशदान/बिक्री/सेवा से आय | 26 |
| 16 | अनुसूची 13- अनुदान/सहायिकी | 26 |
| 17 | अनुसूची 14- शुल्क/अभिदान | 28 |
| 18 | अनुसूची 15- निवेश से आय | 28 |
| 19 | अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय | 30 |
| 20 | अनुसूची 17- अर्जित ब्याज | 30 |
| 21 | अनुसूची 18-अन्य आय | 32 |
| 22 | अनुसूची 19-तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी) | 32 |
| 23 | अनुसूची 20-बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय | 34-38 |
| 24 | अनुसूची 21 - स्थापना खर्च | 40-42 |
| 25 | अनुसूची 22 - अन्य प्रशासनिक व्यय | 44 |
| 26 | अनुसूची 23 - अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय | 46 |
| 27 | अनुसूची 23 (क) - ब्याज | 46 |
| 28 | अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां | 48 |
| 29 | अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां | 50-60 |
| 30 | अनुसूची 26 - पूर्वावधि मदें | 62 |
| 31 | निवेश - उद्दिष्ट आरक्षित निधियां | 64 |
| 32 | निवेश - गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधियां | 66 |
| 33 | 31 मार्च, 2025 तक सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) प्राप्तियां तथा भुगतान | 68 |
| 34 | वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा | 70 |
| 35 | शुद्धिपत्र | 72 |

Annual Accounts 2024-2025



CONTENT

| Sr. No. | Particulars | Page No. |
|---------|--|----------|
| 1 | Balance Sheet as at 31st March, 2025 | 5 |
| 2 | Income and Expenditure Account for the Year Ended 31st March, 2025 | 7 |
| 3 | Schedule 1- Corpus/Capital Fund | 9 |
| 4 | Schedule 2- Reserves And Surplus | 9 |
| 5 | Schedule 3 - Earmarked Funds | 11 |
| 6 | Schedule 4- Secured Loans And Borrowings | 13 |
| 7 | Schedule 5 – Unsecured Loans And Borrowings | 15 |
| 8 | Schedule 6 – Deferred Credit Liabilities | 15 |
| 9 | Schedule 7 - Current Liabilities and Provisions | 17 |
| 10 | Schedule 8 - Fixed Assets | 19 |
| 11 | Schedule 9- Investments from Earmarked Fund | 21 |
| 12 | Schedule 10- Investments – Non earmarked endowment funds/(others) | 21 |
| 13 | Schedule 11- Current Assets, Loans, Advances etc. | 23 |
| 14 | Schedule 11- Current Assets, Loans, Advances etc.(Contd.) | 25 |
| 15 | Schedule 12- Income From Contributions/Sales/Service | 27 |
| 16 | Schedule 13- Grants/Subsidies | 27 |
| 17 | Schedule 14- Fees/Subscriptions | 29 |
| 18 | Schedule 15- Income from Investments | 29 |
| 19 | Schedule 16- Income from Royalty, Publication etc. | 31 |
| 20 | Schedule 17- Interest Earned | 31 |
| 21 | Schedule 18- Other Income | 33 |
| 22 | Schedule 19- Increase/(Decrease) In Stock of Finished Goods & Work In Progress | 33 |
| 23 | Schedule 20 - Expenditure On Benefits To Insured Persons | 35-39 |
| 24 | Schedule 21 - Establishment Expenses | 41-43 |
| 25 | Schedule 22 - Other Administrative Expenses | 45 |
| 26 | Schedule 23 - Expenditure On Grants, Subsidies Etc. | 47 |
| 27 | Schedule 23 A - Interest | 47 |
| 28 | Schedule 24 - Significant Accounting Policy | 49 |
| 29 | Schedule 25 - Contigent Liabilities and Notes on Accounts | 51-61 |
| 30 | Schedule 26 - Prior Period Items | 63 |
| 31 | Investment - Earmarked Reserve Funds | 65 |
| 32 | Investment - Non Earmarked Reserve Funds | 67 |
| 33 | G P F Receipts and Payments as on 31st March, 2025 | 69 |
| 34 | Receipt & Payment Account for the Year 2024-25 | 71 |
| 35 | Corrigendum | 73 |



वार्षिक लेखे 2024-2025


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ करोड़ में

| समग्र / पूंजीगत निधि तथा देयताएं | अनुसूची | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| समग्र / पूंजीगत निधि | 1 | - | - |
| आरक्षितियां एवं अधिशेष | 2 | 1,30,081.69 | 1,25,844.42 |
| उद्दिष्ट / अक्षय निधियां | 3 | 51,009.37 | 41,644.05 |
| प्रतिभूत ऋण एवं उधार | 4 | - | - |
| प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार | 5 | - | - |
| आस्थगित ऋण देयताएं | 6 | - | - |
| वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | 7 | 5,587.11 | 5,303.34 |
| कुल | | 1,86,678.17 | 1,72,791.81 |
| परिसंपत्तियां | | | |
| स्थायी परिसंपत्तियां | 8 | 19,416.47 | 18,241.78 |
| निवेश-उद्दिष्ट / अक्षय निधियां | 9 | 50,690.42 | 41,378.68 |
| निवेश-गैर उद्दिष्ट / अक्षय निधियां | 10 | 1,09,882.34 | 1,07,168.47 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि | 11 | 6,688.94 | 6,002.88 |
| विविध व्यय (बट्टे खाते डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक) | | - | - |
| कुल | | 1,86,678.17 | 1,72,791.81 |
| महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां | 24 | | |
| आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियां | 25 | | |

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2025


(अशोक कुमार सिंह)
महानिदेशक


(टी.एल. यादेन)
वित्त आयुक्त

Annual Accounts 2024-2025



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Balance Sheet as at 31st March, 2025

₹ in crore

| Corpus/ Capital Fund And Liabilities | Schedule | 2024-25 | 2023-24 |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| Corpus/Capital Fund | 1 | - | - |
| Reserves And Surplus | 2 | 1,30,081.69 | 1,25,844.42 |
| Earmarked/ Endowment Funds | 3 | 51,009.37 | 41,644.05 |
| Secured Loans And Borrowings | 4 | - | - |
| Unsecured Loans And Borrowings | 5 | - | - |
| Deferred Credit Liabilities | 6 | - | - |
| Current Liabilities And Provisions | 7 | 5,587.11 | 5,303.34 |
| Total | | 1,86,678.17 | 1,72,791.81 |
| Assets | | | |
| Fixed Assets | 8 | 19,416.47 | 18,241.78 |
| Investments-Earmarked/Endowment Funds | 9 | 50,690.42 | 41,378.68 |
| Investments-Non Earmarked/Endowment Funds | 10 | 1,09,882.34 | 1,07,168.47 |
| Current Assets, Loans, Advances etc. | 11 | 6,688.94 | 6,002.88 |
| Miscellaneous Expenditure (To The Extent Not Written Off Or Adjusted) | | - | - |
| Total | | 1,86,678.17 | 1,72,791.81 |
| Significant Accounting Policies | 24 | | |
| Contingent Liabilities And Notes On Accounts | 25 | | |

Place : New Delhi
Date : 26th May, 2025


(Ashok Kumar Singh)
Director General


(T.L. Yaden)
Financial Commissioner



वार्षिक लेखे 2024-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

₹ करोड़ में

| आय | अनुसूची | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---------|------------------|------------------|
| अंशदान से आय | 12 | 20,511.70 | 18,315.18 |
| अनुदान/सहायिकी | 13 | 0.04 | - |
| शुल्क/अभिदान | 14 | 86.77 | 65.67 |
| निवेश से आय (गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधि) | 15 | 7,959.55 | 7,420.80 |
| रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय | 16 | - | - |
| अर्जित ब्याज | 17 | 15.24 | 12.16 |
| अन्य आय | 18 | 145.75 | 438.20 |
| तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी) | 19 | - | - |
| कुल (क) | | 28,719.05 | 26,252.01 |
| व्यय | | | |
| बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय | 20 | 21,221.81 | 15,825.32 |
| स्थापना व्यय | 21 | 2,532.05 | 1,634.10 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 22 | 463.64 | 370.32 |
| अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय | 23 | - | - |
| ब्याज | | - | - |
| मूल्यह्रास | 8 | 49.55 | 49.77 |
| कुल (ख) | | 24,267.05 | 17,879.51 |
| व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख) | | 4,452.00 | 8,372.50 |
| पूर्वावधि मदें (निवल) | 26 | (214.73) | 67.54 |
| पूंजीगत निर्माण हेतु आरक्षित निधि के लिए प्रावधान | 2 | 205.12 | 183.15 |
| विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (आकस्मिक आरक्षित निधि) | 2 | - | - |
| सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरण | 2 | - | - |
| अधिशेष के कारण शेष/(घाटा) को समग्र/पूंजीगत निधि/सामान्य आरक्षित निधि में ले जाना | | 4,032.15 | 8,256.89 |
| महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां | 24 | | |
| आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियां | 25 | | |

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2025

Asigh
(अशोक कुमार सिंह)
महानिदेशक

Ujjwal
(टी.एल. यादेन)
वित्त आयुक्त

Annual Accounts 2024-2025



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION Income and Expenditure Account for the Year Ended 31st March, 2025

₹ in crore

| Income | Schedule | 2024-25 | 2023-24 |
|---|----------|------------------|------------------|
| Income from Contributions | 12 | 20,511.70 | 18,315.18 |
| Grants/Subsidies | 13 | 0.04 | - |
| Fees/Subscriptions | 14 | 86.77 | 65.67 |
| Income from Investments (non-earmarked reserves Fund) | 15 | 7,959.55 | 7,420.80 |
| Income from Royalty, Publication etc. | 16 | - | - |
| Interest Earned | 17 | 15.24 | 12.16 |
| Other Income | 18 | 145.75 | 438.20 |
| Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress | 19 | - | - |
| Total (A) | | 28,719.05 | 26,252.01 |
| Expenditure | | | |
| Expenditure on Benefits to Insured Persons | 20 | 21,221.81 | 15,825.32 |
| Establishments Expenses | 21 | 2,532.05 | 1,634.10 |
| Other Administrative Expenses | 22 | 463.64 | 370.32 |
| Expenditure on Grants, Subsidies etc. | 23 | - | - |
| Interest | | - | - |
| Depreciation | 8 | 49.55 | 49.77 |
| Total (B) | | 24,267.05 | 17,879.51 |
| Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) | | 4,452.00 | 8,372.50 |
| Prior Period Items(Net) | 26 | (214.73) | 67.54 |
| Provision for Capital Construction Reserve | 2 | 205.12 | 183.15 |
| Transfer to Special Reserve (Contingency reserve) | 2 | - | - |
| Transfer to/ from General Reserve | 2 | - | - |
| Balance Being Surplus/(Deficit) Carried To Corpus/Capital Fund/General Reserve | | 4,032.15 | 8,256.89 |
| Significant Accounting Policies | 24 | | |
| Contingent Liabilities And Notes On Accounts | 25 | | |

Place : New Delhi
Date : 26th May, 2025

A Singh
(Ashok Kumar Singh)
Director General

U Madh
(T.L. Yaden)
Financial Commissioner



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 1—समग्र / पूंजीगत निधि

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---------|---------|
| वर्ष के आरंभ में शेष | - | - |
| जोड़ : समग्र / पूंजीगत निधि के लिए अंशदान | - | - |
| जोड़ / (कटौती) : निवल आय / (व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से अंतरित | - | - |
| वर्ष के अंत में शेष | - | - |

अनुसूची 2—आरक्षित एवं अधिशेष

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|-------------------|--------------------|
| 1. पूंजीगत आरक्षित निधि | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | 0.03 | 0.03 |
| वर्ष के दौरान जोड़ (आदि तुलन पत्र 2012-13 में परिसंपत्तियां @ 1/- रु. की दर से) | - | - |
| घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां | (0.00) | (0.00) |
| उप-योग (क) | 0.03 | 0.03 |
| 2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | - |
| वर्ष के दौरान जोड़ | - | - |
| घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां | - | - |
| उप-योग (ख) | - | - |
| 3. विशेष आरक्षित निधि—आकस्मिक आरक्षित निधि | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | 75.00 | 75.00 |
| वर्ष के दौरान जोड़ | - | - |
| घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां | - | - |
| उप-योग (ग) | 75.00 | 75.00 |
| 4. सामान्य आरक्षित निधि | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | 104,638.71 | 96,381.82 |
| वर्ष के दौरान जोड़ | 4,032.15 | 8,256.89 |
| घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां / अंतरण | - | - |
| उप-योग (घ) | 108,670.86 | 1,04,638.71 |
| 5. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | 21,130.68 | 20,947.53 |
| जोड़ : वर्ष के दौरान प्रावधान | 205.12 | 183.15 |
| जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़ / अंतरण | - | - |
| घटाना : निधि से भुगतान | - | - |
| उप-योग (ङ) | 21,335.80 | 21,130.68 |
| कूल (क + ख + ग + घ + ङ) | 130,081.69 | 1,25,844.42 |

Schedule 1- Corpus/Capital Fund

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|---|----------|----------|
| Balance as at the beginning of the year | - | - |
| Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund | - | - |
| Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account | - | - |
| Balance at the year-end | - | - |

Schedule 2- Reserves And Surplus

₹ in crore

| Particulars | | 2024-25 | 2023-24 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Capital Reserve | | |
| | As per last Account | 0.03 | 0.03 |
| | Addition during the year(Assets @ Rs. 1/- in Opening Balance Sheet 2012-13) | - | - |
| | Less: Deductions during the year | (0.00) | (0.00) |
| | Sub-Total (A) | 0.03 | 0.03 |
| 2. | Revaluation Reserve | | |
| | As per last Account | - | - |
| | Addition during the year | - | - |
| | Less: Deductions during the year | - | - |
| | Sub-Total (B) | - | - |
| 3. | Special Reserve - Contingency Reserve | | |
| | As per last Account | 75.00 | 75.00 |
| | Addition during the year | - | - |
| | Less: Deductions during the year | - | - |
| | Sub-Total (C) | 75.00 | 75.00 |
| 4. | General Reserve | | |
| | As per last Account | 104,638.71 | 96,381.82 |
| | Addition during the year | 4,032.15 | 8,256.89 |
| | Less: Deductions /Transfer during the year | - | - |
| | Sub-Total (D) | 108,670.86 | 1,04,638.71 |
| 5. | Capital Construction Reserve Fund | | |
| | As per last Account | 21,130.68 | 20,947.53 |
| | Add : Provision during the year | 205.12 | 183.15 |
| | Add : Other Additions/ Transfer during the year | - | - |
| | Less : Payment from the fund | - | - |
| | Sub-Total (E) | 21,335.80 | 21,130.68 |
| | Total (A+B+C+D+E) | 130,081.69 | 1,25,844.42 |



सत्यमेव जयते



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधियां निधिवार ब्योरा

₹ करोड़ में

| शीर्ष | स्थायी निःशुल्कता हितलाम आरक्षित निधि | आश्रितजन हितलाम आरक्षित निधि | क. रं. बी. निगम को. विड-19 राहत योजना आरक्षित निधि | मूल्यहास आरक्षित निधि-कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर | मूल्यहास आरक्षित निधि-अस्पताल और औषधालयों (स्टाफ क्वार्टर सहित) | मूल्यहास आरक्षित निधि-अन्य स्थायी परिसंपत्तियां | मूल्यहास आरक्षित निधि-चिकित्सा शिक्षा भवन | कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-पेंशन | कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-उपदान | कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-छुट्टी नकदीकरण | कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि-पेंशनर्स चिकित्सा योजना | कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि | कुल चार्लू वर्ष (2024-2025) | कुल पिछला वर्ष (2023-24) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| क) निधियों का आदि शेष | 10,822.73 | 7,726.48 | 861.29 | 53.25 | 1,770.10 | 3,413.45 | 1,311.39 | 12,060.42 | 1,064.51 | 1,130.49 | 181.67 | 1,248.27 | 41,644.05 | 37,131.05 |
| ख) निधियों में जोड़ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. प्राक्धान | 1,236.46 | 2,325.26 | 1,055.86 | 7.41 | 93.22 | 436.08 | 171.00 | 1,856.29 | 518.43 | 690.97 | 13.39 | 127.15 | 8,531.52 | 3,587.73 |
| 2. निधियों के निवेश से आय | 802.94 | 573.23 | 63.90 | - | 115.59 | 253.24 | 97.29 | 894.76 | 78.98 | 83.87 | 13.48 | 83.88 | 3,061.15 | 2,753.99 |
| 3. अन्य जोड़ | - | - | - | 34.23 | - | - | - | 0.55 | - | - | 2.74 | - | 37.51 | 27.28 |
| कुल (क+ख) | 12,862.13 | 10,624.97 | 1,981.05 | 94.89 | 1,978.91 | 4,102.77 | 1,579.68 | 14,812.02 | 1,661.92 | 1,905.33 | 211.27 | 1,459.30 | 53,274.22 | 43,500.05 |
| ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग/ व्यय | | | | | | | | | | | | | | |
| i. पूंजीगत व्यय | | | | | | | | | | | | | | |
| नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | | | | | |
| गैर उद्दिष्ट निधि को अंतरण | | | | | | | | | | | | | | |
| ii. राजस्व व्यय | | | | | | | | | | | | | | |
| निधि से बहिर्वाह | 490.02 | 556.12 | 71.22 | 35.83 | 125.10 | - | 0.03 | 647.26 | 62.76 | 37.26 | 24.37 | 214.88 | 2,264.85 | 1,856.00 |
| कुल (ग) | 490.02 | 556.12 | 71.22 | 35.83 | 125.10 | - | 0.03 | 647.26 | 62.76 | 37.26 | 24.37 | 214.88 | 2,264.85 | 1,856.00 |
| वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग) | 12,372.11 | 10,068.84 | 1,909.84 | 59.06 | 1,853.81 | 4,102.77 | 1,579.65 | 14,164.76 | 1,599.16 | 1,868.06 | 186.90 | 1,244.41 | 51,009.37 | 41,644.05 |

Annual Accounts 2024-2025



सत्यमेव जयते

Schedule 3 - Earmarked Funds Fund-Wise Break Up

₹ in crore

| Particulars | Permanent Disability Benefit Reserve fund | Dependent's Benefit reserve fund | ESIC COVID-19 Relief Scheme Reserve Fund | Depreciation Reserve fund - Office Building & Staff Quarters | Depreciation Reserve fund - Hospital & Dispensaries (incl staff quarters) | Depreciation Reserve fund - Other Fixed Assets | Depreciation Reserve fund for Medical Education Building | Employees' Benefit Reserve Fund- Pension | Employees' Benefit Reserve Fund- Gratuity | Employees' Benefit Reserve Fund- Leave Encashment | Employees' Benefit Reserve Fund- Pensioners Medical Scheme | ESI Provident Fund | Total Current Year (2024-25) | Total Previous Year (2023-24) |
|--|---|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| a) Opening Balance | 10,822.73 | 7,726.48 | 861.29 | 53.25 | 1,770.10 | 3,413.45 | 1,311.39 | 12,060.42 | 1,064.51 | 1,130.49 | 181.67 | 1,248.27 | 41,044.05 | 37,131.05 |
| b) Additions to the Funds: | | | | | | | | | | | | | | |
| i. Provisions | 1,236.46 | 2,325.26 | 1,055.86 | 7.41 | 93.22 | 436.08 | 171.00 | 1,856.29 | 518.43 | 690.97 | 13.39 | 127.15 | 8,531.52 | 3,587.73 |
| ii. Income from investments of fund | 802.94 | 573.23 | 63.90 | - | 115.59 | 253.24 | 97.29 | 894.76 | 78.98 | 83.87 | 13.48 | 83.88 | 3,061.15 | 2,753.99 |
| iii. Other additions | - | - | - | 34.23 | - | - | - | 0.55 | - | - | 2.74 | - | 37.51 | 27.28 |
| Total (a+b) | 12,862.13 | 10,624.97 | 1,981.05 | 94.89 | 1,978.91 | 4,102.77 | 1,579.68 | 14,812.02 | 1,661.92 | 1,905.33 | 211.27 | 1,459.30 | 53,274.22 | 43,500.05 |
| c) Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds | | | | | | | | | | | | | | |
| i. Capital Expenditure | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fixed Assets | | | | | | | | | | | | | | |
| - Transfer to Non Earmarked Fund | | | | | | | | | | | | | | |
| ii. Revenue Expenditure | | | | | | | | | | | | | | |
| Outflow from the fund | 490.02 | 556.12 | 71.22 | 35.83 | 125.10 | - | 0.03 | 647.26 | 62.76 | 37.26 | 24.37 | 214.88 | 2,264.85 | 1,856.00 |
| Total (c) | 490.02 | 556.12 | 71.22 | 35.83 | 125.10 | - | 0.03 | 647.26 | 62.76 | 37.26 | 24.37 | 214.88 | 2,264.85 | 1,856.00 |
| Net Balance as at the Year-end (a+b- c) | 12,372.11 | 10,068.84 | 1,909.84 | 59.06 | 1,853.81 | 4,102.77 | 1,579.65 | 14,164.76 | 1,599.16 | 1,868.06 | 186.90 | 1,244.41 | 51,009.37 | 41,644.05 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण एवं उधार

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1. केन्द्रीय सरकार | - | - |
| 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) | - | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | - | - |
| क) आवधिक ऋण | | |
| ख) प्रोद्भूत एवं देय ब्याज | | |
| 4. बैंक: | - | - |
| क) आवधिक ऋण | | |
| - प्रोद्भूत एवं देय ब्याज | | |
| ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) | | |
| - प्रोद्भूत एवं देय ब्याज | | |
| 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | - | - |
| 6. डिबैंचर एवं बॉन्ड | - | - |
| 7. अन्य (उल्लेख करें) | - | - |
| कुल | - | - |

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि



Schedule 4 – Secured Loans And Borrowings

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Central Government | - | - |
| 2. State Government (Specify) | - | - |
| 3. Financial Institutions | - | - |
| a) Term Loans | | |
| b) Interest accrued and due | | |
| 4. Banks: | - | - |
| a) Term Loans | | |
| - Interest accrued and due | | |
| b) Other Loans (specify) | | |
| - Interest accrued and due | | |
| 5. Other Institutions and Agencies | - | - |
| 6. Debentures and Bonds | - | - |
| 7. Others (Specify) | - | - |
| Total | - | - |

Note: Amounts due within one year



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 5 - प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--------------------------------|---------|---------|
| 1. केन्द्रीय सरकार | - | - |
| 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) | - | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | - | - |
| 4. बैंक: | | |
| क) आवधिक ऋण | - | - |
| ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) | - | - |
| 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | - | - |
| 6. डिबेंचर एवं बॉन्ड | - | - |
| 7. सावधि जमा | - | - |
| 8. अन्य (उल्लेख करें) | - | - |
| कुल | - | - |

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---------|---------|
| क) पूंजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां | - | - |
| ख) अन्य | - | - |
| कुल | - | - |

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

Schedule 5 – Unsecured Loans And Borrowings

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Central Government | - | - |
| 2. State Government (Specify) | - | - |
| 3. Financial Institutions | - | - |
| 4. Banks: | | |
| a) Term Loans | - | - |
| b) Other Loans (specify) | - | - |
| 5. Other Institutions and Agencies | - | - |
| 6. Debentures and Bonds | - | - |
| 7. Fixed Deposits | - | - |
| 8. Others (Specify) | - | - |
| Total | - | - |

Note: Amounts due within one year

Schedule 6 – Deferred Credit Liabilities:

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---------|---------|
| a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets | - | - |
| b) Other | - | - |
| Total | - | - |

Note: Amounts due within one year



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|-----------------|-----------------|
| क. वर्तमान देयताएं | | |
| 1. स्वीकृतियां/विविध जमा | 63.72 | 75.07 |
| 2. विविध देनदार | - | - |
| क) माल एवं सेवाओं हेतु | 1,529.75 | 1,362.31 |
| ख) सेवाएं (अति विशिष्टता उपचार) | 751.72 | 765.88 |
| 3. प्राप्त पेशगियां | - | - |
| 4. प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं | - | - |
| क) प्रतिभूत ऋण/उधार | - | - |
| ख) प्रतिभूति रहित ऋण/उधार | - | - |
| 5. सांविधिक देनदारियां | - | - |
| क) अतिदेय | - | - |
| ख) अन्य स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) | 38.52 | 34.38 |
| ग) खाते पर देय | 2,700.27 | 2,618.14 |
| 6. प्रतिभूति जमा तथा बयाना जमा (ईएमडी) | 78.18 | 63.39 |
| 7. नई पेंशन योजना का अंशदान | 55.53 | 55.33 |
| 8. क.रा.बी. निगम भविष्य निधि में दावा न की गई जमा राशियां | (0.00) | (0.00) |
| 9. अन्य देयताएं | 363.84 | 323.71 |
| 10. सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना (जीएसएलआईएस) | 5.59 | 5.12 |
| कुल (क) | 5,587.11 | 5,303.34 |
| ख. प्रावधान | | |
| 1. कराधान हेतु | - | - |
| 2. उपदान | - | - |
| 3. अधिवर्षिता/पेंशन | - | - |
| 4. संचित छुट्टी नकदीकरण | - | - |
| 5. व्यापार वारंटियां/दावे | - | - |
| 6. लेखापरीक्षा शुल्क हेतु | - | - |
| 7. अन्य | - | - |
| कुल (ख) | - | - |
| कुल (क+ख) | 5,587.11 | 5,303.34 |

नोट :

- क्र.सं. क-2 (क) में माल की खरीद हेतु देय राशि शामिल है जिसे स्टॉक में लिया गया है।
- क्र. सं. क-9 में अन्य सभी मौजूदा देनदारियां शामिल हैं जैसे टेलीफोन शुल्क, बिजली, किराया, वेतन, बोनस और नकद हितलाभ आदि के बकाया भुगतान।



Schedule 7 – Current Liabilities and Provisions

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|-----------------|-----------------|
| A. Current Liabilities | | |
| 1. Acceptances/ Misc. Deposits | 63.72 | 75.07 |
| 2. Sundry Creditors: | - | - |
| a) For Goods & Services | 1,529.75 | 1,362.31 |
| b) Services (SST) | 751.72 | 765.88 |
| 3. Advances Received | - | - |
| 4. Interest accrued but not due on: | - | - |
| a) Secured Loans/borrowings | - | - |
| b) Unsecured Loans/borrowings | - | - |
| 5. Statutory Liabilities: | - | - |
| a) Overdue | - | - |
| b) Others-T. D. S. | 38.52 | 34.38 |
| c) On Account Payable | 2,700.27 | 2,618.14 |
| 6. Security Deposits & EMD | 78.18 | 63.39 |
| 7. Contribution of New Pension Scheme | 55.53 | 55.33 |
| 8. Unclaimed Deposit in ESIC P.F. | (0.00) | (0.00) |
| 9. Other liabilities | 363.84 | 323.71 |
| 10. Group Saving Linked Insurance Scheme (GSLIS) | 5.59 | 5.12 |
| Total (A) | 5,587.11 | 5,303.34 |
| B. Provisions | | |
| 1. For Taxation | - | - |
| 2. Gratuity | - | - |
| 3. Superannuation/Pension | - | - |
| 4. Accumulated Leave Encashment | - | - |
| 5. Trade Warranties/Claims | - | - |
| 6. For Audit fees | - | - |
| 7. Others | - | - |
| Total (B) | - | - |
| Total (A+B) | 5,587.11 | 5,303.34 |

Notes:

1) Sl. No. A - 2 (a) includes amount payable towards purchase of goods which have been taken into stock.

2) Sl. No. A - 9 includes all other current liabilities like outstanding payments towards telephone charges, electricity, rent, Salary, bonus and Cash benefit.

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियाँ

₹ करोड़ में

| विवरण | सकल खंड | | | | मूल्यहास | | | | निवल खंड |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| | वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन | वर्ष के दौरान जमा | वर्ष के दौरान कटौतियाँ/अंतरण | वर्ष की समाप्ति पर लागत/मूल्यांकन | वर्ष की शुरुआत में स्थिति | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान कटौतियों पर | वर्ष की समाप्ति पर कुल | |
| 1. भूमि | | | | | | | | | |
| क) पूर्ण स्वामित्वाधीन | 345.13 | 5.41 | - | 350.54 | - | - | - | - | 350.54 |
| ख) पट्टाधृति | 25.71 | 0.18 | - | 25.89 | - | - | - | - | 25.89 |
| 2. भवन : | | | | | | | | | |
| क) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर | 496.32 | 253.64 | - | 749.96 | 85.34 | 7.41 | - | 92.75 | 657.21 |
| ख) अस्पताल एवं औषधालय | 2,625.16 | 205.68 | - | 2,830.84 | 808.53 | 93.22 | - | 901.75 | 1,929.09 |
| ग) चिकित्सा शिक्षा भवन | 5,347.52 | - | - | 5,347.52 | 1,091.80 | 171.00 | - | 1,262.80 | 4,084.72 |
| घ) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ङ) राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से स्वामिती (क.रा.बी. निगम हिस्सा) | 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | 0.09 |
| च) इकाई (सत्ता) से असंबंधित भूमि पर अधिरचना | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर | 2,645.27 | 124.71 | - | 2,769.98 | 946.09 | 211.20 | - | 1,157.29 | 1,612.69 |
| 4. वाहन | 4.15 | (0.04) | - | 4.11 | 2.68 | 0.35 | - | 3.03 | 1.08 |
| 5. फर्नीचर, जुड़नार | 1,071.72 | 166.12 | - | 1,237.84 | 964.95 | 180.86 | - | 1,145.81 | 92.02 |
| 6. कार्यालय उपस्कर | 81.31 | 17.52 | - | 98.83 | 54.72 | 11.61 | - | 66.33 | 32.50 |
| 7. कम्प्यूटर/सहायक उपकरण | 614.38 | 40.55 | - | 654.93 | 475.03 | 30.66 | - | 505.69 | 149.25 |
| 8. बिजली के संस्थापन | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. पुस्तकालय की पुस्तकें | 13.93 | 1.59 | - | 15.52 | 9.33 | 1.78 | - | 11.11 | 4.42 |
| 10. नलकूप एवं जलापूर्ति | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ-चिकित्सा शिक्षा | 0.22 | - | - | 0.22 | 0.08 | 0.00 | - | 0.08 | 0.14 |
| एक रुपये की दर से ओ.बी.एस. में परिसंपत्तियाँ | 0.04 | 0.00 | - | 0.04 | - | - | - | - | 0.04 |
| मौजूदा वर्ष का कुल (2024-25) | 13,270.96 | 815.36 | - | 14,086.31 | 4,438.59 | 708.08 | - | 5,146.67 | 8,939.64 |
| पिछला वर्ष (2023-24) | 12,949.87 | 321.08 | - | 13,270.96 | 3,799.73 | 638.86 | - | 4,438.59 | 8,832.36 |
| पूँजीगत कार्य प्रगति पर | 4,970.83 | 989.87 | 630.54 | 5,330.16 | - | - | - | - | 5,330.16 |
| कुल | 18,241.78 | 1,805.23 | 630.54 | 19,416.47 | 4,438.59 | 708.08 | - | 5,146.67 | 14,269.80 |

708.08 करोड़ रुपये के कुल मूल्यहास में 205.22 करोड़ रुपये का मूल्यहास चिकित्सा स्थापनाओं पर अवस्थित स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है, 453.31 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है तथा 49.55 करोड़ रुपये प्रशासनिक कार्यालयों में स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है। चिकित्सा स्थापनाओं और चिकित्सा शिक्षा का मूल्यहास अनुसूची 20क तथा 20घ में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रशासनिक कार्यालयों में परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है।



Schedule 8 - Fixed Assets

₹ in crore

| Description | Gross Block | | | | | Depreciation | | | Net Block As at the current year-end |
|--|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---|
| | Cost valuation As at beginning of the year | Additions during the year | Deductions/Transfer during the year | Cost/valuation at the year-end | As at the beginning of the year | During The year | On Deductions During the year | Total up to year end | |
| 1. Land: | | | | | | | | | |
| a) Freehold | 345.13 | 5.41 | - | 350.54 | - | - | - | - | 350.54 |
| b) Leasehold | 25.71 | 0.18 | - | 25.89 | - | - | - | - | 25.89 |
| 2. Buildings: | | | | | | | | | |
| a) Office Building & Staff Qtrs. | 496.32 | 253.64 | - | 749.96 | 85.34 | 7.41 | - | 92.75 | 657.21 |
| b) Hospitals & Dispensaries | 2,625.16 | 205.68 | - | 2,830.84 | 808.53 | 93.22 | - | 901.75 | 1,929.09 |
| c) Medical Education Building | 5,347.52 | - | - | 5,347.52 | 1,091.80 | 171.00 | - | 1,262.80 | 4,084.72 |
| d) Ownership Flats/Premises | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e) Jointly owned with State Gov. (ESIC Share) | 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | 0.09 |
| f) Superstructures on Land not belonging to the entity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Plants Machinery & Equipments | 2,645.27 | 124.71 | - | 2,769.98 | 946.09 | 211.20 | - | 1,157.29 | 1,612.69 |
| 4. Vehicles | 4.15 | (0.04) | - | 4.11 | 2.68 | 0.35 | - | 3.03 | 1.08 |
| 5. Furniture, Fixtures, | 1,071.72 | 166.12 | - | 1,237.84 | 964.95 | 180.86 | - | 1,145.81 | 92.02 |
| 6. Office Equipment | 81.31 | 17.52 | - | 98.83 | 54.72 | 11.61 | - | 66.33 | 32.50 |
| 7. Computer/Peripherals | 614.38 | 40.55 | - | 654.93 | 475.03 | 30.66 | - | 505.69 | 149.25 |
| 8. Electric Installations | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Library Books | 13.93 | 1.59 | - | 15.52 | 9.33 | 1.78 | - | 11.11 | 4.42 |
| 10. Tubewells & W. Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Other Fixed Assets-Medical Education | 0.22 | - | - | 0.22 | 0.08 | 0.00 | - | 0.08 | 0.14 |
| Assets In Obs @ Rs.1 | 0.04 | 0.00 | - | 0.04 | - | - | - | - | 0.04 |
| Total of Current Year (2024 -25) | 13,270.96 | 815.36 | - | 14,086.31 | 4,438.59 | 708.08 | - | 5,146.67 | 8,939.64 |
| Previous Year (2023-24) | 12,949.87 | 321.08 | - | 13,270.96 | 3,799.73 | 638.86 | - | 4,438.59 | 8,832.36 |
| Capital Work-in Progress | 4,970.83 | 989.87 | 630.54 | 5,330.16 | - | - | - | - | 5,330.16 |
| Total | 18,241.78 | 1,805.23 | 630.54 | 19,416.47 | 4,438.59 | 708.08 | - | 5,146.67 | 14,269.80 |

Out of the total depreciation of Rs 708.08 Crores, depreciation to the tune of Rs. 205.22 Crore pertains to fixed assets located at medical establishments, Rs.453.31 Crores pertains to Medical Education and Rs. 49.55 Crores pertain to fixed assets at Administrative Offices. The depreciation of Medical Establishments and Medical Education has been presented in Schedule 20 A and 20 D and Depreciation on assets at Administrative offices is shown in Income & Expenditure Account.



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 9 – निवेश उद्दिष्ट निधियों से निवेश

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|------------------|------------------|
| 1 सरकारी प्रतिभूतियों में | 26,320.94 | 22,176.31 |
| 2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | 2,350.81 | 1990.87 |
| 3 शेयर | - | 0.00 |
| 4 डिबेंचर एवं बॉन्ड | 14,389.10 | 10977.22 |
| 5 समनुषंगी एवं संयुक्त नवोद्यम | - | - |
| 6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास मियादी जमा | 77.66 | 12.34 |
| 7. एस.डी.ए. | 7,551.91 | 6221.94 |
| कुल | 50,690.42 | 41,378.68 |

(संलग्नक-1 के अनुसार ब्योरा)

अनुसूची 10 – निवेश गैर-उद्दिष्ट-अक्षय निधियां (अन्य)

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1 सरकारी प्रतिभूतियों में | 57,056.27 | 57,435.40 |
| 2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | 5,095.89 | 5,156.25 |
| 3 शेयर | - | - |
| 4 डिबेंचर एवं बॉन्ड | 31,191.45 | 28,430.41 |
| 5 समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम | - | - |
| 6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास मियादी-जमा | 168.35 | 31.95 |
| 7. एस.डी.ए. | 16,370.38 | 16,114.47 |
| कुल | 1,09,882.34 | 1,07,168.47 |

(संलग्नक-2 के अनुसार ब्योरा)

नोट:

- राज्य प्रतिभूतियों में राज्य विकास ऋण तथा सरकारी प्रतिभूतियां सम्मिलित है।
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में टी.आर.ई.पी.एस. (ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली), मार्जिन तथा बचत खाते सम्मिलित हैं।
- डिबेंचरों एवं बंधपत्रों में प्रत्याभूत (गारंटीकृत) बंधपत्र, सेवा-बंधपत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रक बंधपत्र सम्मिलित हैं।

SCHEDULE 9 – INVESTMENTS FROM EARMARKED FUND

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|---|------------------|------------------|
| 1. In Government Securities | 26,320.94 | 22,176.31 |
| 2. Other approved Securities | 2,350.81 | 1990.87 |
| 3. Shares | - | 0.00 |
| 4. Debentures and Bonds | 14,389.10 | 10977.22 |
| 5. Subsidiaries and Joint Ventures | - | - |
| 6. Fixed Deposits with Scheduled commercial Banks | 77.66 | 12.34 |
| 7. SDA | 7,551.91 | 6221.94 |
| Total | 50,690.42 | 41,378.68 |

(Detail as per Annexure-I)

Schedule 10 – Investments - Non-Earmarked -Endowment Funds / (Others)

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. In Government Securities | 57,056.27 | 57,435.40 |
| 2. Other approved Securities | 5,095.89 | 5,156.25 |
| 3. Shares | - | - |
| 4. Debentures and Bonds | 31,191.45 | 28,430.41 |
| 5. Subsidiaries and Joint Ventures | - | - |
| 6. Fixed Deposits with Scheduled commercial Banks | 168.35 | 31.95 |
| 7. SDA | 16,370.38 | 16,114.47 |
| Total | 1,09,882.34 | 1,07,168.47 |

(Detail as per Annexure-II)

NOTE:

1. Government Securities includes State Development loan and Govt. securities
2. Other approved securities includes TREPS (Tri party repo system), Margin and savings accounts
3. Debentures and Bonds include Guaranteed bonds, service bonds, PSU Bonds.



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियां आदि

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------------|---------------|
| क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ: | | |
| 1 वस्तु-सूची | | |
| क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे | 228.58 | 192.69 |
| ख) फुटकर औजार | - | - |
| ग) भंडार माल | - | - |
| – तैयार माल | - | - |
| – चल रहा कार्य | - | - |
| – कच्चा माल | - | - |
| 2. विविध देनदार | | |
| क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया देनदारियां | - | - |
| ख) अन्य | - | - |
| 3 नकद राशि (चेक/ड्राफ्ट सहित) | 0.02 | 0.02 |
| 4 बैंक में शेष | - | - |
| क) अनुसूचित बैंकों के पास | - | - |
| – चालू खातों पर | - | - |
| – जमा खातों पर (मुनाफा शामिल है) | - | - |
| – बचत खातों पर | 110.93 | 59.00 |
| ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास | - | - |
| – चालू खातों पर | - | - |
| – जमा खातों पर | - | - |
| – बचत खातों पर | - | - |
| 5 डाकघर-बचत खाता | - | - |
| 6 धन प्रेषण | 337.32 | 235.60 |
| कुल (क) | 676.84 | 487.31 |

- 1) क्रम संख्या 1 (क) में 31 मार्च तक दवाओं, प्रयोगशाला वस्तुओं, सर्जिकल उपकरणों, वर्दी (लिवरीज), लिनेन (गद्दे सहित), बर्तन और कटलरी, एक्स-रे फिल्म और मशीनरी स्पेयर के अलावा अतिरिक्त पुर्जों (स्पेयर पार्ट्स) का स्टॉक शामिल है।
- 2) क्रम संख्या 1 (ख) में वे वस्तुएं शामिल हैं जो भंडार में उपलब्ध हैं और स्पैनर, जिग्स, जैक इत्यादि जैसे उपकरणों के एकत्रीकरण (असेंबली) के लिए उपयोगी हैं।
- 3) चूंकि लेखन सामग्री, मुद्रति प्रपत्र तथा रजिस्टर और गृह प्रबंधन उपभोज्य वस्तुएँ हैं तथा इनकी भौतिकता (मैटियरिलिटी) को देखते हुए इन्हें वस्तु सूची में नहीं माना जाता है। ।



Schedule 11 – Current Assets, Loans, Advances etc

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------------|---------------|
| A. Current Assets: | | |
| 1. Inventories: | | |
| a) Stores and Spares | 228.58 | 192.69 |
| b) Loose Tools | - | - |
| c) Stock-in-trade | - | - |
| - Finished Goods | - | - |
| - Work-in-progress | - | - |
| - Raw Materials | - | - |
| 2. Sundry Debtors: | | |
| a) Debts Outstanding for a period exceeding six months | - | - |
| b) Others | - | - |
| 3. Cash in hand (including cheques/drafts) | 0.02 | 0.02 |
| 4. Bank Balances: | | |
| a) With Scheduled Banks: | - | - |
| - On Current Accounts | - | - |
| - On Deposit Accounts (includes margin money) | - | - |
| - On Savings Accounts | 110.93 | 59.00 |
| b) With non-Scheduled Banks: | - | - |
| - On Current Accounts | - | - |
| - On Deposit Accounts | - | - |
| - On Savings Accounts | - | - |
| 5. Post Office- Savings Accounts | - | - |
| 6. Remittances | 337.32 | 235.60 |
| Total (A) | 676.84 | 487.31 |

- 1) Sl. No.1 (a) includes stock of medicines, lab items, surgical equipments, liveries, linens (including mattresses) , utensils & cutleries, X-ray films & spare parts other than machinery spares as on 31st March
- 2) Sl. No. 1 (b) includes the items that are available in the stores which are useful for assembly of equipments, like spanners, jigs, jacks, etc.
- 3) Stationeries, printed forms and Registers and housekeeping items are not considered as inventories, as they are consumables and considering the materiality.

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी)

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|-----------------|-----------------|
| ख. ऋण, पेशगियां एवं अन्य परिसंपत्तियाँ | | |
| 1. ऋण: | - | - |
| क) कर्मचारिवृन्द (स्टॉफ) | - | - |
| ख) अन्य संस्थाएं जो उस संस्था के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में कार्यरत हैं | - | - |
| ग) अन्य-राज्य सरकार को | - | - |
| 2. नकदी में समायोज्य/वसूली योग्य पेशगियाँ तथा अन्य राशियाँ | | |
| क) पूंजीगत लेखा पर | - | - |
| ख) पूर्व अदायगियां | 5.41 | 4.55 |
| ग) कार्यालय प्रमुखों को स्थायी पेशगी | 1.61 | 1.59 |
| घ) कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन की पेशगियां | (0.07) | (0.07) |
| ङ) कर्मचारियों को मोटर वाहन पर पेशगियां | (1.33) | (1.33) |
| च) गृह निर्माण अग्रिम | 4.28 | 3.93 |
| छ) त्योहार/पंखा/बाढ़ पेशगियां | 2.07 | 1.21 |
| ज) कंप्यूटर पेशगी | 2.77 | 2.58 |
| झ) अन्य विविध पेशगियाँ | 1,509.72 | 1,337.39 |
| ञ) स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत/दैनिक भत्ता अग्रिम | 17.14 | 13.47 |
| उप योग | 1,541.60 | 1,363.32 |
| 3. अस्पताल/औषधालयों/कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव/विशेष मरम्मत हेतु पेशगी | | |
| क) मरम्मत एवं रखरखाव – कार्यालय भवन | 6.00 | 38.17 |
| ख) मरम्मत एवं रखरखाव – अस्पताल एवं औषधालय | 296.14 | 234.84 |
| ग) विशेष मरम्मत – कार्यालय भवन | 59.07 | 53.26 |
| घ) विशेष मरम्मत – अस्पताल एवं औषधालय | 259.79 | 212.01 |
| उप योग | 621.00 | 538.29 |
| 4. प्रोद्भूत आय : | | |
| क) निवेश पर | 2,773.52 | 2,796.55 |
| ख) ऋण एवं पेशगियों पर | - | - |
| ग) अंशदान प्राप्य | 996.38 | 740.04 |
| (.....रुपये की अप्राप्य देय आय शामिल है) | | |
| उप योग | 3,769.90 | 3,536.59 |
| 5. प्राप्तियोग्य दावे | 79.59 | 77.37 |
| कुल (ख) | 6,012.10 | 5,515.57 |
| कुल(क+ख) | 6,688.94 | 6,002.88 |

SCHEDULE 11 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|---|-----------------|-----------------|
| B. Loans, Advances And Other Assets | | |
| 1. Loans: | - | - |
| a) Staff | - | - |
| b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity | - | - |
| c) Other -To State Govt. | - | - |
| 2. Advances and other amounts adjustable/recoverable in cash | | |
| a) On Capital Account | - | - |
| b) Prepayments | 5.41 | 4.55 |
| c) Permanent advance to Heads of the Office | 1.61 | 1.59 |
| d) Advances of pay on transfer of employees | (0.07) | (0.07) |
| e) Advances on motor conveyance to employees | (1.33) | (1.33) |
| f) House Building advance | 4.28 | 3.93 |
| g) Festival / Fan / Flood advances | 2.07 | 1.21 |
| h) Computer advance | 2.77 | 2.58 |
| i) Other Misc. advances | 1,509.72 | 1,337.39 |
| j) Advance of TA/LTC/DA on transfer | 17.14 | 13.47 |
| Sub Total | 1,541.60 | 1,363.32 |
| 3. Advance towards Repair & Maintenance / Special Repair of Hospital/ Dispensaries/Office Building : | | |
| a) Repair & Maint-Office Building | 6.00 | 38.17 |
| b) Repair & Maint-Hospital & Disp | 296.14 | 234.84 |
| c) Special Repair-Office Building | 59.07 | 53.26 |
| d) Special Repair-Hospital & Disp. | 259.79 | 212.01 |
| Sub Total | 621.00 | 538.29 |
| 4. Income Accrued: | | |
| a) On Investments | 2,773.52 | 2,796.55 |
| b) On Loans and Advances | - | - |
| c) Contribution Receivables (includes income due unrealized-Rs.....) | 996.38 | 740.04 |
| Sub Total | 3,769.90 | 3,536.59 |
| 5. Claims Receivable | 79.59 | 77.37 |
| Total (B) | 6,012.10 | 5,515.57 |
| Total (A+B) | 6,688.94 | 6,002.88 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 12 - अंशदान/बिक्री/सेवा से आय

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|------------------|------------------|
| 1. अंशदान से आय | | |
| क) अंशदान | 20,483.10 | 18,282.91 |
| ख) अंशदान पर ब्याज | 28.59 | 32.27 |
| 2. सेवाओं से आय | - | - |
| क) श्रम और प्रक्रमण प्रभार | - | - |
| ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा | - | - |
| ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली | - | - |
| घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति) | - | - |
| ङ) अन्य | - | - |
| च) चिकित्सा सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों से प्राप्त राशि | - | - |
| कुल | 20,511.70 | 18,315.18 |

अनुसूची 13 - अनुदान/सहायिकी (प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सहायिकियां)

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--------------------------|-------------|----------|
| 1) केन्द्र सरकार | - | - |
| 2) राज्य सरकारें | 0.04 | - |
| 3) सरकारी एजेंसियां | - | - |
| 4) संस्थाएं/कल्याण निकाय | - | - |
| 5) अंतरराष्ट्रीय संगठन | - | - |
| 6) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| कुल | 0.04 | - |

Schedule 12 – Income From Contributions/Sales/Service

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|------------------|------------------|
| 1) Income from Contributions | | |
| a) Contributions | 20,483.10 | 18,282.91 |
| b) Interest on Contributions | 28.59 | 32.27 |
| 2) Income from Services | - | - |
| a) Labour and Processing Charges | - | - |
| b) Professional/Consultancy Service | - | - |
| c) Agency Commission and Brokerage | - | - |
| d) Maintenance Services (Equipment/Property) | - | - |
| e) Others | - | - |
| f) Amount received from retired IPs towards medical services | - | - |
| Total | 20,511.70 | 18,315.18 |

Schedule 13 – Grants/Subsidies (Irrevocable Grants & Subsidies Received)

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--------------------------------|-------------|----------|
| 1) Central Government | - | - |
| 2) State Government(s) | 0.04 | - |
| 3) Government Agencies | - | - |
| 4) Institutions/Welfare Bodies | - | - |
| 5) International Organisations | - | - |
| 6) Others (Specify) | - | - |
| Total | 0.04 | - |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1) प्रवेश/दाखिला शुल्क | 73.61 | 52.40 |
| 2) वार्षिक शुल्क/अभिदान | - | - |
| 3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क | - | - |
| 4) परामर्श शुल्क | - | - |
| 5) अन्य | 13.16 | 13.27 |
| कुल | 86.77 | 65.67 |

टिप्पणी: अनुसूची 14, (5-अन्य) में छात्रावास शुल्क, प्रशिक्षण प्राप्तियां, अपशिष्ट सामग्री की बिक्री, छात्रों से प्राप्त बंधपत्र राशि आदि जैसी चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां शामिल हैं।

अनुसूची 15 - निवेश से आय

(निधियों में अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)

₹ करोड़ में

| विवरण | उद्दिष्ट निधि से निवेश* | | निवेश-गैर-उद्दिष्ट निधियां** | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 |
| 1). ब्याज | | | | |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों पर | 1678.72 | 1,511.85 | 4364.99 | 4,073.78 |
| ख) अन्य बंध पत्र / डिबेंचर | 813.63 | 724.18 | 2115.59 | 1,951.35 |
| ग) अन्य प्रतिभूतियाँ | 125.29 | 116.21 | 325.78 | 313.14 |
| घ) बैंक मियादी जमा | 3.00 | 0.95 | 7.81 | 2.56 |
| ड) एस.डी.ए. | 440.50 | 400.79 | 1145.38 | 1,079.96 |
| कुल | 3,061.15 | 2,753.99 | 7,959.55 | 7,420.80 |
| 2) लाभांश | | | | |
| क) शेयर पर | - | - | - | - |
| ख) म्यूच्युअल फंड प्रतिभूतियों पर | - | - | - | - |
| 3) अन्य | - | - | - | - |
| सकल योग | 3,061.15 | 2,753.99 | 7,959.55 | 7,420.80 |
| उद्दिष्ट निधियों को अंतरण | 3,061.15 | 2,753.99 | | |

* संलग्नक - I के अनुसार ब्योरा

** संलग्नक - II के अनुसार ब्योरा

Schedule 14 – Fees/Subscriptions

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 1) Entrance / Admission Fees | 73.61 | 52.40 |
| 2) Annual Fees/Subscriptions | - | - |
| 3) Seminar/Program Fees | - | - |
| 4) Consultancy Fees | - | - |
| 5) Others | 13.16 | 13.27 |
| Total | 86.77 | 65.67 |

Note : Schedule 14, (5-others) includes medical education receipts like Hostel fees, training receipts, sale of waste material, bond amount received from students etc.

Schedule 15 – Income from Investments (Income on Investment from Earmarked Funds transferred to Funds)

₹ in crore

| Particulars | Investment from Earmark Fund* | | Investment- Non Earmarked Funds** | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 |
| 1) Interest | | | | |
| a) On Govt. Securities | 1678.72 | 1,511.85 | 4364.99 | 4,073.78 |
| b) Other Bonds/Debentures | 813.63 | 724.18 | 2115.59 | 1,951.35 |
| c) Others securities | 125.29 | 116.21 | 325.78 | 313.14 |
| d) Bank Fixed Deposits | 3.00 | 0.95 | 7.81 | 2.56 |
| e) SDA | 440.50 | 400.79 | 1145.38 | 1,079.96 |
| Total | 3,061.15 | 2,753.99 | 7,959.55 | 7,420.80 |
| 2) Dividends: | | | | |
| a) On Shares | - | - | - | - |
| b) On Mutual Fund Securities | - | - | - | - |
| 3) Others | - | - | - | - |
| Grand Total | 3,061.15 | 2,753.99 | 7,959.55 | 7,420.80 |
| Transferred To Earmarked Funds | 3,061.15 | 2,753.99 | | |

* Details as per Annexure - I

** Details as per Annexure - II



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|------------------|---------|---------|
| 1) रॉयल्टी से आय | - | - |
| 2) प्रकाशन से आय | - | - |
| 3) अन्य | - | - |
| कुल | | |

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------|---------|
| 1) सावधिक जमा पर : | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - |
| ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | - | - |
| घ) अन्य | - | - |
| 2) बचत खातों पर : | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ | 15.15 | 12.06 |
| ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ | - | - |
| ग) संस्थाओं के साथ | - | - |
| घ) अन्य | - | - |
| 3) ऋण/अग्रिम : | | |
| क) कर्मचारी/स्टाफ | 0.09 | 0.10 |
| ख) अन्य | - | - |
| 4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज | - | - |
| कुल | 15.24 | 12.16 |

Schedule 16 – Income from Royalty, Publication etc.

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1) Income from Royalty | - | - |
| 2) Income from Publications | - | - |
| 3) Others | - | - |
| Total | | |

Schedule 17 – Interest Earned

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|--------------|--------------|
| 1) On Term Deposits: | | |
| a) With Scheduled Banks | - | - |
| b) With Non-Scheduled Banks | - | - |
| c) With Institutions | - | - |
| d) Others | - | - |
| 2) On Savings Accounts: | | |
| a) With Scheduled Banks | 15.15 | 12.06 |
| b) With Non-Scheduled Banks | - | - |
| c) With Institutions | - | - |
| d) Others | - | - |
| 3) On Loans / advances: | | |
| a) Employees/Staff | 0.09 | 0.10 |
| b) Others | - | - |
| 4) Interest on Debtors and Other Receivables | - | - |
| Total | 15.24 | 12.16 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 18 – अन्य आय

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------------|---------------|
| 1) परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ | | |
| क) मालिकाना परिसंपत्तियां | - | - |
| ख) अनुदान से अभिगृहीत या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां | - | - |
| 2) राज्य सरकार से निर्यात प्रोत्साहन वसूली / प्रतिपूर्ति | - | - |
| 3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां) | - | - |
| 4) विविध आय | 10.84 | 310.29 |
| 5) किराया, दर और पौरकर | 77.76 | 74.09 |
| 6) शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां, हर्जाना | 57.14 | 53.82 |
| 7) राज्य सरकार / दिल्ली प्रशासन का अंश | - | - |
| 8) असंगठित क्षेत्र से अंशदान | 0.01 | - |
| कुल | 145.75 | 438.20 |

अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|----------------------------------|---------|---------|
| क) शेष स्टॉक | | |
| – तैयार माल | - | - |
| – चल रहा कार्य (प्रगतिधीन कार्य) | - | - |
| ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक | | |
| – तैयार माल | - | - |
| – चल रहा कार्य (प्रगतिधीन कार्य) | - | - |
| निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख) | | |

नोट: अनुसूची 18, बिंदु 4 में विविध आय की अन्य मदों जैसे छुट्टी वेतन और पेंशन आय की वसूली, डुप्लिकेट पहचान पत्र जारी करना इत्यादि शामिल हैं।

Schedule 18 – Other Income

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------------|---------------|
| 1) Profit on Sale/disposal of Assets: | | |
| a) Owned assets | - | - |
| b) Assets acquired out of grants, or received free of cost | - | - |
| 2) Export Incentives realized/Compensation from State Govt. | - | - |
| 3) Fees for Miscellaneous Services(Medical Education Receipts) | - | - |
| 4) Miscellaneous Income | 10.84 | 310.29 |
| 5) Rent, Rates and Taxes | 77.76 | 74.09 |
| 6) Fee, Fine & Forfeitures,Damages | 57.14 | 53.82 |
| 7) State Govts./Delhi Admn's share | - | - |
| 8) Contribution from Unorganized Sector | 0.01 | - |
| Total | 145.75 | 438.20 |

Schedule 19 – Increase/(Decrease) In Stock of Finished Goods & Work In Progress

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--------------------------------------|---------|---------|
| a) Closing stock | | |
| - Finished Goods | - | - |
| - Work-in-progress | - | - |
| b) Less: Opening Stock | | |
| - Finished Goods | - | - |
| - Work-in-progress | - | - |
| Net Increase/(Decrease) [A-B] | | |

Note: Schedule 18, point 4) includes other items of misc income like recovery of leave salary and pension income, issue of duplicate identity card etc.



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 20 – बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय

₹ करोड़ में

| अनुसूची – 20-क चिकित्सा हितलाभ | 2024-25 | 2023-24 |
|--|------------------|------------------|
| 1) क.रा.बी.निगम के हिस्से के खर्च के रूप में राज्य सरकार/सोसाइटी को भुगतान | 5,159.61 | 4,705.74 |
| 2) निम्नलिखित प्रदान करने पर प्रत्यक्ष खर्च की गई राशि :- | | |
| (क) क.रा.बी. निगम द्वारा अपने अस्पतालों/औषधालयों/व्यवसायजन्य रोग केन्द्रों में चिकित्सा देखरेख और मातृत्व सुविधाएं | | |
| (i) वेतन एवं भत्तों पर | 2,968.05 | 3,137.83 |
| (ii) के लिए प्रावधान :- | | |
| पेंशन | 797.16 | |
| उपदान | 326.01 | |
| छुट्टी नकदीकरण | 447.27 | |
| पेंशनभोगी चिकित्सा योजना | 5.67 | |
| (iii) अन्य प्रशासनिक व्यय पर | 663.38 | 668.36 |
| (iv) औषधियों एवं मरहम पट्टी पर | 1,208.29 | 1,164.59 |
| (v) अपशेष प्रबंधन | 10.75 | 6.70 |
| उप योग (क) | 6,426.58 | 4,977.48 |
| (ख) बीमाकृत महिला एवं बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को प्रसवावस्था खर्च | 4.94 | 5.09 |
| (ग) अति विशिष्टता उपचार (टाइ अप) | 2,199.29 | 1,574.09 |
| (घ) द्वितीयक देखरेख (टाइ अप) | 121.68 | 136.06 |
| (ङ) नियोक्ता उपयोग औषधालय | 1.48 | 1.35 |
| 3) मूल्यह्रास (अस्पताल एवं औषधालय पर) | 205.22 | 202.24 |
| 4) मरम्मत एवं रखरखाव-अस्पताल तथा औषधालय भवन | 303.23 | 260.14 |
| 5) अस्पताल तथा औषधालय के लिए दर और कर | 45.52 | 36.53 |
| योग (क) | 14,467.56 | 11,898.74 |

Schedule 20 – Expenditure On Benefits To Insured Persons

₹ in crore

| Schedule 20- A Medical Benefits | 2024-25 | 2023-24 |
|---|------------------|------------------|
| 1) Payments to State Governments/Society as ESIC's share of expenditure | 5,159.61 | 4,705.74 |
| 2) Expenditure incurred directly on providing: | | |
| (a) Medical care & maternity facilities by ESIC in own Hospitals, Dispensaries/ODC: | | |
| (i) On Pay & Allowances | 2,968.05 | 3,137.83 |
| (ii) Provision for :- | | |
| Pension | 797.16 | |
| Gratuity | 326.01 | |
| Leave Encashment | 447.27 | |
| Pensioners Medical Scheme | 5.67 | |
| (iii) On Other Administrative expenditure | 663.38 | 668.36 |
| (iv) On Drugs & Dressings | 1,208.29 | 1,164.59 |
| (v) On Waste Management | 10.75 | 6.70 |
| Sub-Total (a) | 6,426.58 | 4,977.48 |
| (b) Confinement expenses to insured women & wives of IP | 4.94 | 5.09 |
| (c) Super Specialities Treatment (Tie up) | 2,199.29 | 1,574.09 |
| (d) Secondary Care (Tie up) | 121.68 | 136.06 |
| (e) Employer Utility Dispensary | 1.48 | 1.35 |
| 3) Depreciation (Hospital & Dispensaries) | 205.22 | 202.24 |
| 4) Repairs & Maintenance - Hospital & Dispensary Buildings | 303.23 | 260.14 |
| 5) Rates & Taxes for Hospital & Dispensaries | 45.52 | 36.53 |
| Total (A) | 14,467.56 | 11,898.74 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 20 ख - नकद हितलाभ

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1) बीमारी हितलाभ | 457.78 | 432.18 |
| 2) वर्धित बीमारी हितलाभ | 0.19 | 0.10 |
| 3) विस्तारित बीमारी हितलाभ | 67.80 | 64.98 |
| 4) मातृत्व हितलाभ | 428.68 | 428.98 |
| 5) निःशक्तता हितलाभ | | |
| क) अस्थायी | 94.72 | 96.04 |
| ख) स्थायी पूंजीकृत मूल्य (प्रावधान) | 1,236.46 | 1,030.33 |
| 6) आश्रितजन हितलाभ पूंजीकृत मूल्य (प्रावधान) | 2,325.26 | 994.36 |
| 7) बीमाकृत व्यक्ति को कोविड हितलाभ पूंजीकृत मूल्य (प्रावधान) | 1,055.86 | - |
| 8) अंत्येष्टि व्यय | 29.12 | 28.52 |
| 9) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (बेरोजगारी भत्ता) | 5.98 | 6.71 |
| 10) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना | 2.72 | 0.62 |
| कुल (ख) | 5,704.57 | 3,082.83 |

अनुसूची 20 ग - अन्य हितलाभ

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|-------------|-------------|
| 1) चिकित्सा बोर्ड और अपीलीय अधिकरण | 0.38 | 0.41 |
| 2) बीमाकृत व्यक्ति को सवारी खर्च के लिए भुगतान | 1.16 | 1.14 |
| 3) मजदूरी हानि | 0.12 | 0.17 |
| 4) विविध | 0.50 | 0.86 |
| कुल (ग) | 2.17 | 2.58 |

Schedule 20 B – Cash Benefits

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|---|-----------------|-----------------|
| 1) Sickness Benefit | 457.78 | 432.18 |
| 2) Enhanced Sickness Benefit | 0.19 | 0.10 |
| 3) Extended Sickness Benefit | 67.80 | 64.98 |
| 4) Maternity Benefit | 428.68 | 428.98 |
| 5) Disablement Benefit: | | |
| a) Temporary | 94.72 | 96.04 |
| b) Permanent - Capitalised value (Provision) | 1,236.46 | 1,030.33 |
| 6) Dependent's Benefit - Capitalised value (Provision) | 2,325.26 | 994.36 |
| 7) COVID Benefit to IP - Capitalised value (Provision) | 1,055.86 | - |
| 8) Funeral Expenses | 29.12 | 28.52 |
| 9) Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna (Unemployment Allowance) | 5.98 | 6.71 |
| 10) Atal Bimit Vyakti Kalyan Yogna | 2.72 | 0.62 |
| Total (B) | 5,704.57 | 3,082.83 |

Schedule 20 C – Other Benefits

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|-------------|-------------|
| 1) Medical Board and Appeal Tribunals | 0.38 | 0.41 |
| 2) Payment to Insured persons towards conveyance charges | 1.16 | 1.14 |
| 3) Loss of wages | 0.12 | 0.17 |
| 4) Miscellaneous | 0.50 | 0.86 |
| Total (C) | 2.17 | 2.58 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 20 घ – चिकित्सा शिक्षा

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|------------------|------------------|
| 1) वेतन एवं भत्ते | 467.79 | 386.86 |
| 2) के लिए प्रावधान :- | | |
| पेंशन | 12.11 | |
| उपदान | 18.84 | |
| छुट्टी नकदीकरण | 27.09 | |
| पेंशनभोगी चिकित्सा योजना | 0.08 | |
| 3) अन्य प्रशासनिक खर्च | 42.34 | 42.55 |
| 4) मूल्यह्रास – चिकित्सा शिक्षा | 453.31 | 386.85 |
| 5) मरम्मत एवं रखरखाव – चिकित्सा शिक्षा भवन | 25.94 | 24.90 |
| कुल (घ) | 1,047.51 | 841.16 |
| कुल (क+ख+ग+घ) | 21,221.81 | 15,825.32 |

टिप्पणी: अनुसूची 20 क (2 – (क) – (ii) और अनुसूची 20-घ (2) 'अन्य प्रशासनिक व्यय' में भवन, पानी, बिजली इत्यादि जैसी आकस्मिकताओं को छोड़कर परिसंपत्तियों पर मरम्मत, रखरखाव और भाड़ा शामिल हैं।

Schedule 20 D – Medical Education

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|------------------|------------------|
| 1) Pay & Allowances | 467.79 | 386.86 |
| 2) Provision for :- | | |
| Pension | 12.11 | |
| Gratuity | 18.84 | |
| Leave Encashment | 27.09 | |
| Pensioners Medical Scheme | 0.08 | |
| 3) Other Administrative Expenses | 42.34 | 42.55 |
| 4) Depreciation -Medical Education | 453.31 | 386.85 |
| 5) Repairs & Maintenance - Medical Education Buildings | 25.94 | 24.90 |
| Total (D) | 1,047.51 | 841.16 |
| Total (A+B+C+D) | 21,221.81 | 15,825.32 |

Note: Schedule 20 A (2-(a)-(ii) and schedule 20-D (2) "other administrative expenditure" includes repair, maintenance and hire charges on assets excluding building, contingencies like water, electricity etc.



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 21 – स्थापना खर्च

₹ करोड़ में

| अनुसूची 21क – स्थापना खर्च – अधीक्षण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---------------|---------------|
| क) वेतन और मजदूरी | 373.84 | 370.50 |
| ख) भत्ते | 364.04 | 321.84 |
| ग) बोनस | 8.83 | 8.51 |
| घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश | - | - |
| ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी. निगम का अंश | - | - |
| च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च | 6.95 | 2.48 |
| छ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों पर खर्च | - | - |
| ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान | - | - |
| झ) अनुकम्पा अनुदान | - | - |
| ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना | - | - |
| उप-योग (क) | 753.66 | 703.33 |

अनुसूची 21ख – स्थापना खर्च – क्षेत्र कार्य

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------------|---------------|
| क) वेतन और मजदूरी | 130.82 | 132.02 |
| ख) भत्ते | 117.53 | 103.65 |
| ग) बोनस | 3.84 | 3.44 |
| घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश | - | - |
| ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी. निगम का अंश | - | - |
| च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च | 0.04 | 0.06 |
| छ) कर्मचारी हतलाभों पर खर्च | - | - |
| ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान | - | - |
| झ) अनुकम्पा अनुदान | - | - |
| ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना | - | - |
| उप-योग (ख) | 252.23 | 239.17 |

Schedule 21 – Establishment Expenses

₹ in crore

| Schedule 21A – Establishment Expenses - Superintendents | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---------------|---------------|
| a) Salaries and Wages | 373.84 | 370.50 |
| b) Allowances | 364.04 | 321.84 |
| c) Bonus | 8.83 | 8.51 |
| d) ESIC share of NPS | - | - |
| e) ESIC share of GSLIS | - | - |
| f) Staff Welfare Expenses | 6.95 | 2.48 |
| g) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits | - | - |
| h) Leave salary & Pension contribution | - | - |
| i) Compassionate grants | - | - |
| j) PF Deposit Linked Insurance Scheme | - | - |
| Sub-Total (A) | 753.66 | 703.33 |

Schedule 21 B – Establishment Expenses - Field Work

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------------|---------------|
| a) Salaries and Wages | 130.82 | 132.02 |
| b) Allowances | 117.53 | 103.65 |
| c) Bonus | 3.84 | 3.44 |
| d) ESIC share of NPS | - | - |
| e) ESIC share of GSLIS | - | - |
| f) Staff Welfare Expenses | 0.04 | 0.06 |
| g) Expenses on Employees Benefits | - | - |
| h) Leave salary & Pension contribution | - | - |
| i) Compassionate grants | - | - |
| j) PF Deposit Linked Insurance Scheme | - | - |
| Sub-Total (B) | 252.23 | 239.17 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 21 – स्थापना खर्च

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|-----------------|-----------------|
| क) वेतन और मजदूरी | 504.66 | 502.52 |
| ख) भत्ते | 481.58 | 425.49 |
| ग) बोनस | 12.67 | 11.95 |
| घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च | 6.99 | 2.55 |
| अधीक्षक और क्षेत्र कार्य – उप-योग (क+ख) | 1,005.89 | 942.50 |
| ड) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च | - | - |
| च) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान | 0.67 | 0.29 |
| छ) अनुकम्पा अनुदान | - | - |
| ज) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना | 0.04 | 0.09 |
| झ) प्रावधान :- | | |
| i) पेंशन | 1,047.02 | 559.38 |
| ii) उपदान | 173.58 | 32.78 |
| iii) छुट्टी नकदीकरण | 216.60 | 15.81 |
| iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना | 7.63 | 7.43 |
| ञ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश | 80.60 | 75.76 |
| ट) सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना का क.रा.बी. निगम का अंश | 0.03 | 0.05 |
| कुल | 2,532.05 | 1,634.10 |



Schedule 21 – Establishment Expenses

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|---|-----------------|-----------------|
| a) Salaries and Wages | 504.66 | 502.52 |
| b) Allowances | 481.58 | 425.49 |
| c) Bonus | 12.67 | 11.95 |
| d) Staff Welfare Expenses | 6.99 | 2.55 |
| Superintendents and field work - Sub Total (A+B) | 1,005.89 | 942.50 |
| e) Expenses on Employees Benefits | - | - |
| f) Leave salary & Pension contribution | 0.67 | 0.29 |
| g) Compassionate grants | - | - |
| h) PF Deposit Linked Insurance Scheme | 0.04 | 0.09 |
| i) Provision for :- | | |
| i) Pension | 1,047.02 | 559.38 |
| ii) Gratuity | 173.58 | 32.78 |
| iii) Leave Encashment | 216.60 | 15.81 |
| iv) Pensioners Medical Scheme | 7.63 | 7.43 |
| j) ESIC share of New Pension Scheme | 80.60 | 75.76 |
| k) ESIC share of GSLIS | 0.03 | 0.05 |
| TOTAL (A + B) | 2,532.05 | 1,634.10 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 22 – अन्य प्रशासनिक खर्च

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------------|---------------|
| (i) विद्युत और ऊर्जा | 24.89 | 24.44 |
| (ii) जल प्रभार | 1.59 | 1.93 |
| (iii) बीमा | 0.56 | 0.52 |
| (iv) किराया, दर और पौरकर | 47.31 | 42.32 |
| (v) वाहन चालन और रख रखाव (भाड़ा प्रभार सहित) | 6.34 | 5.50 |
| (vi) डाकखर्च, टेलीफोन और संचार प्रभार | 18.17 | 13.93 |
| (vii) छपाई और लेखन सामग्री | 6.21 | 5.10 |
| (viii) यात्रा और सवारी खर्च | 25.48 | 17.98 |
| (xi) अभिदान खर्च—आवधिक | 0.29 | 0.23 |
| (x) बाह्य लेखापरीक्षा शुल्क | 0.06 | 0.02 |
| (xi) आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क | 0.00 | 0.00 |
| (xii) परामर्श सेवा व्यय | 0.36 | 1.58 |
| (xiii) निवेश प्रबंधन प्रभार | 3.67 | 2.77 |
| (xiv) विधिक प्रभार | 4.88 | 5.31 |
| (xv) बीमा न्यायालय | 0.09 | 0.12 |
| (xvi) अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ईसा) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान | 1.37 | 1.05 |
| (xvii) रखरखाव खर्च | 34.06 | 29.72 |
| (xviii) बैंक खाता बनाए रखने के प्रभार एवं अन्य बैंक प्रभार | 1.46 | 7.55 |
| (xix) हानियाँ | 44.21 | 0.01 |
| (xx) मरम्मत और अनुरक्षण – ईआरपी प्रचालन खर्च तथा अन्य मरम्मत | 70.81 | 94.91 |
| (xxi) भर्ती खर्च | 0.12 | 6.17 |
| (xxii) राजस्व वसूली प्रकोष्ठ | 0.72 | 0.60 |
| (xxiii) विज्ञापन और प्रचार | 8.35 | 12.36 |
| (xxiv) पहरा व निगरानी | 51.64 | 47.34 |
| (xxv) प्रशिक्षण | 5.77 | 3.58 |
| (xxvi) विविध | 17.65 | 15.45 |
| (xxvii) स्वच्छता कार्य योजना व्यय | 0.51 | 0.37 |
| (xxviii) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत व अनुरक्षण | 87.09 | 29.44 |
| कुल | 463.64 | 370.32 |

टिप्पणी: (xix) हानियों में वर्ष के दौरान लेखांकन इकाइयों द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि और वर्ष के दौरान परिपक्व हुए निवेश पर प्राप्त मूल्य (अंकित मूल्य) और खरीद मूल्य (सौदा मूल्य) के बीच का अंतर शामिल है।

(xxvi) विविध में समाचारपत्र, पत्रिकाएं और प्रकाशन, गर्म और ठंडे मौसम का शुल्क, निगम की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन के लिए प्रभार और अन्य विविध इत्यादि शामिल हैं।

Schedule 22 – Other Administrative Expenses

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---------------|---------------|
| (i) Electricity and power | 24.89 | 24.44 |
| (ii) Water charges | 1.59 | 1.93 |
| (iii) Insurance | 0.56 | 0.52 |
| (iv) Rent, Rates and Taxes | 47.31 | 42.32 |
| (v) Vehicles Running and Maintenance(Including Hire Charges) | 6.34 | 5.50 |
| (vi) Postage, Telephone and Communication Charges | 18.17 | 13.93 |
| (vii) Printing and Stationary | 6.21 | 5.10 |
| (viii) Travelling and Conveyance Expenses | 25.48 | 17.98 |
| (ix) Subscription Expenses - periodicals | 0.29 | 0.23 |
| (x) External Audit Fees | 0.06 | 0.02 |
| (xi) Internal Audit Fees | 0.00 | 0.00 |
| (xii) Consultancy Services Expenditure | 0.36 | 1.58 |
| (xiii) Investment Management Charges | 3.67 | 2.77 |
| (xiv) Legal Charges | 4.88 | 5.31 |
| (xv) Insurance Courts | 0.09 | 0.12 |
| (xvi) Contribution to ISSA & other international organisations | 1.37 | 1.05 |
| (xvii) House keeping expenses | 34.06 | 29.72 |
| (xviii) Charges for maintaining bank accounts & other bank charges | 1.46 | 7.55 |
| (xix) Losses | 44.21 | 0.01 |
| (xx) Repairs and Maintenance -ERP Operating Expenses & Others repairs | 70.81 | 94.91 |
| (xxi) Recruitment expenses | 0.12 | 6.17 |
| (xxii) Revenue recovery Cell | 0.72 | 0.60 |
| (xxiii) Advertisement and Publicity | 8.35 | 12.36 |
| (xxiv) Watch & Ward | 51.64 | 47.34 |
| (xxv) Training | 5.77 | 3.58 |
| (xxvi) Miscellaneous | 17.65 | 15.45 |
| (xxvii) Swachhata action plan expenditure | 0.51 | 0.37 |
| (xxviii) Repair & Maint. of office Building & Staff Quarters | 87.09 | 29.44 |
| Total | 463.64 | 370.32 |

Note: (ix) losses includes loss on sale of assets by accounting units during the year and difference between realized value (face value) and purchase price (deal value) on investment matured during the year

(xxvi) Miscellaneous includes newspapers, periodicals and publications, hot and cold weather charges, charges for valuation of assets and liabilities of corporation and other misc etc.



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 23 - अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---------|---------|
| क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान | - | - |
| ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां | - | - |
| कुल | - | - |

अनुसूची 23क - ब्याज

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|------------------------------------|---------|---------|
| क) नियत ऋणों पर | - | - |
| ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) | - | - |
| ग) अन्य (यदि हो तो उल्लेख करें) | - | - |
| कुल | - | - |



Schedule 23 – Expenditure On Grants, Subsidies Etc.

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------|---------|
| a) Grants given to Institutions/Organisations | - | - |
| b) Subsidies given to Institutions/Organisations | - | - |
| Total | - | - |

Schedule 23A – Interest

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|--|---------|---------|
| a) On Fixed Loans | - | - |
| b) On Other Loans (including Bank Charges) | - | - |
| c) Others (specify) | - | - |
| Total | | |

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

| | |
|---|---|
| 1 | वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत लेखाकरण के सामान्य फार्मेट की संगत प्रस्तुतियोग्य अनिवार्यताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत अन्यथा वर्णित हो। |
| 2 | स्थायी परिसंपत्ति: स्थायी परिसंपत्तियाँ सकल मूल्य की ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं। |
| 3 | मूल्यह्रास: (क) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास क.रा.बी. निगम की आशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन मैथड) पर प्रदान किया जाता है। पूंजीकरण वर्ष में ₹ 5,000/- तक की लागत वाली सभी परिसंपत्तियों का पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है। चालू वर्ष 2024-2025 के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्ति के लिए यह मानते हुए कि अवशिष्ट मूल्य शून्य है, आनुपातिक मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। |
| 4 | वस्तु सूची: निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में वस्तु-सूची, भंडार और अतिरिक्त माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। ये लागतें प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम आधार पर होती हैं। क.रा.बी. निगम लेखाकरण नीति के अनुसार वस्तु-सूची में केवल दवाओं, प्रयोगशाला वस्तुएं जैसे किटें, केमिकल आदि, शल्य चिकित्सा उपस्कर, गद्दे सहित चादर, वर्दी, एक्स-रे फिल्में तथा केमिकल एवं कटलरीज तथा बर्तन शामिल हैं। लेखन सामग्री वस्तुएं केवल राजस्व खर्च के लिए प्रभार्य हैं। |
| 5 | राजस्व: राजस्व का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। तथापि, नियोक्ता को जारी किए गए मांग/वसूली नोटिस के माध्यम से की गई किसी वसूली के मामले में जिसे न्यायालय में विकसित किया जा सके, राजस्व को नकद आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखा-जोखा नकद आधार पर रखा जाता है। |
| 6 | निवेश: दीर्घ अवधि के रूप में वर्गीकृत निवेश तथा चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। सभी निवेश अनुमोदित निवेश नीति में यथानिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋण, सरकारी गारंटी बॉण्ड, सरकार सेवित बॉण्ड, एएए, सीपीएसयू बॉण्ड, मियादी जमा तथा अन्य प्रतिभूतियों के रूप में संविभाग प्रबंधकों (पोर्टफोलियो मैनेजर) के माध्यम से किए जाते हैं। |
| 7 | कर्मचारी हितलाभ: पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के लिए पृथक निधि रखी गई है। ऐसी मदों पर निगम की देयता का लेखाकरण मानक 15 के अनुसार वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर हिसाब किया जाता है। बीमांकन मूल्यांकन के कारण निधि में जोड़ या घटा का, जोड़ या घटा जैसा भी मामला हो उस वर्ष में निगम के व्यय या आय के रूप में, यथास्थिति, हिसाब रखा जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हिसाब उसी वर्ष में व्यय के रूप में किया जाता है। |
| 8 | पूंजीगत निर्माण आरक्षित: पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि अस्पतालों, औषधालयों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण के लिए है। पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) को अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 1 द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित क.रा.बी.निगम की 161वीं बैठक में 'गैर-उद्दिष्ट निधि' के रूप में घोषित किया गया। लेखाकरण नीति के अनुसार पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) को अंशदान आय के एक प्रतिशत पर प्रभारित किया जाता है। |



SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

| | |
|---|--|
| 1 | The Financial Statement are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting recommended by C & AG of India. |
| 2 | Fixed Assets: Fixed assets are stated at historical cost at gross value. |
| 3 | Depreciation : (a) Depreciation on Fixed Assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in Companies Act, 2013 as per revised accounting policy of ESIC. All assets costing up to Rs. 5,000 are fully depreciated in the year of capitalization. Proportionate depreciation is provided for assets capitalised during the current year 2024-25 assuming residual value to be NIL. |
| 4 | Inventory : Inventory ,store and spares in Hospitals managed by Corporation are valued at cost. The costs are based on first in first out basis. As per accounting Policy of ESIC inventory comprises of Medicines, Lab Items viz. kits, chemicals etc., Surgical Equipment's, Linen including Mattress, Liveries, X-ray Films and chemicals & Cutleries and Utensils only. Stationery items are charged to revenue expenditure only. |
| 5 | Revenue : Revenue is accounted on accrual basis. However in case of any recovery through demand/recovery notice issued to employer, which can be disputed in court of law, the revenue is recorded on cash basis. Further, Interest on advance to employees is accounted for on cash basis. |
| 6 | Investment : Investment classified as long-term and current investments are carried at cost. All investments are made as per approved investment policy through portfolio managers in the form of Government Securities, State Development Loans, Government Guaranteed Bonds, Government serviced bonds, AAA CPSU Bonds, Fixed Deposits and other securities as specified in approved Investment policy. |
| 7 | Employees Benefits : Separate fund for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners' Medical Scheme has been set up. The liability of Corporation on the account of such items is accounted for on actuarial basis at the year end as per accounting standard 15. The addition or deletion to fund on account of actuarial valuation is accounted as expenditure or income, as the case may be, of the Corporation in the year of addition or deletion. Encashment of Earned Leave by employees during the year is accounted as expenses in the same year. |
| 8 | Capital Construction Reserve : Capital Construction Reserve Fund is for construction of hospitals, dispensaries, Office buildings, staff quarters, etc. Capital Construction Reserve Fund (CCRF) has been declared as Non-Earmarked fund in 161st meeting of ESI Corporation held on 14th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 1. CCRF is charged at one percent of contribution income as per accounting policy. |

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

| क्र.सं | 1. लेखाओं पर टिप्पणी |
|--------|---|
| 1.01 | वर्ष 2024-25 के लिए क.रा.बी. निगम के लेखाओं को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुशंसित, क.रा.बी. निगम द्वारा यथा अंगीकृत और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप में लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए गए हैं। |
| 1.02 | वित्तीय विवरण, लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तुलना की सुविधा हेतु, जहां भी आवश्यकता हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन किया जाता है। |
| 1.03 | अनुसूची-26 के अंतर्गत दर्शाई गई पूर्व अवधि आय/व्यय का लेखाकरण मानक-5 (एएस-5) के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाकरण किया गया है। |
| 1.04 | वस्तु (संपत्ति) सूची के शेष माल पर एफ.आइ.एफ.ओ. पद्धति से मूल्यांकन किया जाता है। |
| 1.05 | नियत परिसंपत्ति आंतरिक मालभाड़ा, शुल्क और कर तथा आकस्मिक व्ययों के सम्मिलित उपार्जन के लागत पर निश्चित की जाती है। |
| 1.06 | कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज नकद आधार पर मान्य किए जाते हैं। |
| 1.07 | वर्ष 2023-24 तक क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे तौर पर संचालित चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान हेतु दिल्ली सरकार से वसूलीयोग्य कुल राशि ₹3742.81 करोड़ है। दिल्ली सरकार अपने पत्र संख्या एफ 17(3)(1)/डीएचएस/जीआइए/2013/ क.रा.बी.नि./52324, दिनांक 26.09.2014 द्वारा खर्च के 1/8 भाग (शेयर) का भुगतान करने हेतु सहमत हुई थी परंतु दिनांक 31.03.2025 तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले को दिल्ली सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है लेकिन मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। यह मामला लोक लेखा समिति (पीएसी) में उठाया गया था और समिति ने अपनी 115वीं रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की है कि मंत्रालय काफी समय से लंबित मामले को हल करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 58(4) के अनुसार कार्रवाई करे। तदनुसार, माननीय श्रम मंत्री, भारत सरकार ने मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(4) के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मध्यस्थता याचिका दायर करने का कार्य विधि शाखा द्वारा जाने-माने काउंसिल के साथ किया जा रहा है। दिल्ली सरकार से हुई प्राप्ति को प्राप्ति के वर्ष में लेखाबद्ध किया जाएगा। |
| | आरक्षित निधि |
| 1.08 | किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिकता आरक्षित निधि (पूर्व में आपात आरक्षित निधि के रूप में ज्ञात) का सृजन किया गया है। दिनांक 27/28 नवम्बर, 1986 की स्थायी समिति और निगम की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस निधि में शेष केवल ₹75.00 करोड़ तक सीमित किया गया। चूंकि इस निधि में शेष ₹ 75.00 करोड़ था, अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है। |



SCHEDULE 25 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

| SI No | 1. NOTES ON ACCOUNTS |
|-------|---|
| 1.01 | The accounts of ESI Corporation for the year 2024-25 are prepared on accrual basis of accounting in the common format for Autonomous Bodies prescribed by Ministry of Finance, recommended by C &AG of India and as adopted by ESI Corporation and approved by Ministry of Labour and Employment, Government of India. |
| 1.02 | The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, as per the accrual method of accounting. The previous year figures are regrouped, wherever required, for convenience of comparisons. |
| 1.03 | Prior period income/ expenditure shown under Schedule- 26 is accounted for as per guideline of Accounting Standards -5 (AS-5). |
| 1.04 | Inventory has been valued on FIFO method on closing stock. |
| 1.05 | Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and Incidental expenses. |
| 1.06 | Interest on loan & Advances to employees is recognised on cash basis. |
| 1.07 | The total amount recoverable from Delhi Government for the provision of medical services directly operated by ESIC till the year 2023-24 is Rs. 3742.81Crores. Delhi Government vide its letter no. F.17(3)(1)/DHS/GIA/2013/ESIC/52324 dated 26.09.2014 agreed to pay 1/8th of the expenditure but the same has not been received till 31.03.2025. The matter has been taken up with the Delhi Government at various levels but the matter is yet to be resolved. The matter was raised in Public Accounts Committee (PAC) and Committee in its 115th report opined that the Ministry may take action as per Section 58(4) of the ESI Act, 1948 to appoint an Arbitrator to resolve the long pending issue. Accordingly, the Hon'ble Labour Minister, Government of India has approved the proposal for appointment of an Arbitrator. The filing of arbitration petition in the Supreme Court of India under Section 58(4) of the ESIC Act is being carried out by the Legal Branch along with learned counsel. Receipt from Delhi Government will be accounted for in the year of receipt. |
| | Reserve Funds :- |
| 1.08 | Contingency Reserve Fund (earlier known as Emergency Reserve Fund) has been created to meet any emergency situation. In pursuance of the decision of the Standing Committee and the Corporation taken in their meeting on 27/28th November, 1986, the balance in this fund is limited to ₹ 75.00 crores only. As the balance in this fund was ₹ 75.00 crores, no provision has been made. |



वार्षिक लेखे 2024-2025

| 1.09 | वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) [पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना] के लिए प्रावधान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 37 के उपबंध तथा लेखाकरण मानक 15-कर्मचारी हितलाभ के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान स्थायी निःशक्तता हितलाभ निधि (पीडीबीएफ), आश्रितजन हितलाभ निधि (डीबीएफ) तथा क.रा.बी.नि.कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि के लिए प्रावधान भी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------|-------|------|-------------------------|----------|--------|--------|------|------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.10 | <p>कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) – पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना हेतु प्रावधान नीचे दिए गए विवरण अनुसार बीमांकिक आधार पर दर्ज किया गया है – (₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="272 703 1450 1137"> <thead> <tr> <th rowspan="2">अनुसूची</th> <th colspan="4">कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ)</th> </tr> <tr> <th>पेंशन</th> <th>उपदान</th> <th>छुट्टी नकदीकरण</th> <th>पीएमएस</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अनुसूची 20-क चिकित्सा हितलाभ *</td> <td>797.16</td> <td>326.01</td> <td>447.27</td> <td>5.67</td> </tr> <tr> <td>अनुसूची 20-घ चिकित्सा शिक्षा *</td> <td>12.11</td> <td>18.84</td> <td>27.09</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>अनुसूची 21 स्थापना खर्च</td> <td>1,047.02</td> <td>173.58</td> <td>216.60</td> <td>7.63</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>1,856.29</td> <td>518.43</td> <td>690.97</td> <td>13.39</td> </tr> </tbody> </table> | अनुसूची | कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) | | | | पेंशन | उपदान | छुट्टी नकदीकरण | पीएमएस | अनुसूची 20-क चिकित्सा हितलाभ * | 797.16 | 326.01 | 447.27 | 5.67 | अनुसूची 20-घ चिकित्सा शिक्षा * | 12.11 | 18.84 | 27.09 | 0.08 | अनुसूची 21 स्थापना खर्च | 1,047.02 | 173.58 | 216.60 | 7.63 | कुल | 1,856.29 | 518.43 | 690.97 | 13.39 |
| अनुसूची | कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पेंशन | उपदान | छुट्टी नकदीकरण | पीएमएस | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अनुसूची 20-क चिकित्सा हितलाभ * | 797.16 | 326.01 | 447.27 | 5.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अनुसूची 20-घ चिकित्सा शिक्षा * | 12.11 | 18.84 | 27.09 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अनुसूची 21 स्थापना खर्च | 1,047.02 | 173.58 | 216.60 | 7.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल | 1,856.29 | 518.43 | 690.97 | 13.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | निवेश | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | <p>उद्दिष्ट आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज को अनुसूची 15 के अंतर्गत संबंधित आरक्षित निधि में जमा किया गया है तथा गैर उद्दिष्ट निधि पर ब्याज को आय एवं व्यय लेखा में निगम की आय के रूप में लिया गया है। क.रा.बी. निगम ने भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) के माध्यम से विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) में भी निवेश किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) ने दिनांक 22 अप्रैल 2025 के उनके पत्र संख्या फा.सं.-पी.ए.ओ./पत्राचार/क.रा.बी.नि./एम.एस./2024-25/85-86 द्वारा 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार विशेष जमा खाते (एस.डी.ए.) में 23,922.29 करोड़ के विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) के अंत शेष की पुष्टि की। विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज 1585.88 करोड़ है। निवेश पर ब्याज और उद्दिष्ट तथा गैर-उद्दिष्ट निधि के लिए उनके नियतन का ब्योरा निम्नानुसार है:-</p> <table border="1" data-bbox="272 1615 1450 1892"> <thead> <tr> <th>निवेश पर ब्याज</th> <th>(₹ करोड़ में)</th> <th>नियतन</th> <th>(₹ करोड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज</td> <td>1,585.88</td> <td>उद्दिष्ट निधियां</td> <td>3,061.15</td> </tr> <tr> <td>मियादी जमा/ प्रतिभूतियों पर ब्याज/ लाभांश</td> <td>9,434.82</td> <td>गैर-उद्दिष्ट निधियां</td> <td>7,959.55</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>11,020.70</td> <td>कुल</td> <td>11,020.70</td> </tr> </tbody> </table> | निवेश पर ब्याज | (₹ करोड़ में) | नियतन | (₹ करोड़ में) | विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज | 1,585.88 | उद्दिष्ट निधियां | 3,061.15 | मियादी जमा/ प्रतिभूतियों पर ब्याज/ लाभांश | 9,434.82 | गैर-उद्दिष्ट निधियां | 7,959.55 | कुल | 11,020.70 | कुल | 11,020.70 | | | | | | | | | | | | | |
| निवेश पर ब्याज | (₹ करोड़ में) | नियतन | (₹ करोड़ में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज | 1,585.88 | उद्दिष्ट निधियां | 3,061.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मियादी जमा/ प्रतिभूतियों पर ब्याज/ लाभांश | 9,434.82 | गैर-उद्दिष्ट निधियां | 7,959.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल | 11,020.70 | कुल | 11,020.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Annual Accounts 2024-2025



सत्यमेव जयते

| | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.09 | The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) [Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme] during the Financial Year has been done on the basis of actuarial valuation in terms of Accounting Standard 15-Employees Benefit and provision of Sec 37 of Employees' State Insurance Act 1948. The provision for Permanent Disability Benefit Fund (PDBF), Dependent Benefit Fund (DBF) and ESIC Covid-19 Relief Scheme Reserve Fund during the year has also been done on the basis of actuarial valuation. | | | |
| 1.10 | The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) - Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme has been booked on the basis of actuarial valuation as per details given below:- (₹ in crore) | | | |
| | Schedule | EBRF | | |
| | | Pension | Gratuity | Leave Encashment |
| | | | | PMS |
| | Schedule 20-A Medical Benefits* | 797.16 | 326.01 | 447.27 |
| | Schedule 20-D Medical Education* | 12.11 | 18.84 | 27.09 |
| | Schedule 21 Establishment Expenses | 1,047.02 | 173.58 | 216.60 |
| | Total | 1,856.29 | 518.43 | 690.97 |
| | Investments | | | |
| 1.11 | Interest on investment of earmarked reserve fund has been credited to respective reserve fund under schedule 15 and Interest on non earmarked fund has been taken as income of the Corporation in Income & Expenditure Account. ESIC has also invested in Special Deposit Account (SDA) through Pay & Account Office (PAO), Ministry of Labour & Employment. PAO of Ministry of Labour & Employment has confirmed the closing balance of SDA of ₹ 23,922.29 crore as on 31.03.2025 vide their Letter No. F.No. PAO/Corres/ESIC/MS/2024-25/85-86 dated 22nd April 2025. Interest on SDA is ₹ 1585.88 crore. Detail of interest on investment and their allocation to earmarked and non-earmarked fund are as follows : | | | |
| | INTEREST ON INVESTMENTS | (₹ in crore) | ALLOCATION | (₹ in crore) |
| | Interest on SDA | 1,585.88 | Earmarked funds | 3,061.15 |
| | Interest/ Dividend on Fixed Deposit/securities | 9,434.82 | Non-earmarked Funds | 7,959.55 |
| | Total | 11,020.70 | Total | 11,020.70 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

| | |
|------|---|
| 1.12 | क.रा.बी. निगम निधि का समेकित निवेश उद्दिष्ट तथा गैर उद्दिष्ट निधियों के लिए किया जाता है। कुल निवेश पर अर्जित ब्याज का नियतन, क.रा.बी. निगम भविष्य निधि के सिवाय वित्तीय वर्ष के लिए निधि के आदि शेष के आधार पर निधियों में से किया जाता है। क.रा.बी.निगम भविष्य निधि के लिए ब्याज नियतन अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में वर्ष के लिए जमा वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है। अभिदाता के खाते में जमा किए गए सामान्य भविष्य निधि ब्याज की अधिकता, आवंटित ब्याज से अधिक को सामान्य आरक्षित निधि और इसके विपरीत से अंतरित किया जाता है। |
| 1.13 | दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम की कुल निवेश राशि ₹160572.76 करोड़ है जिसमें से विशेष जमा खाता में निवेश राशि ₹23922.29 करोड़ है तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास मियादी जमा राशि 46.01 करोड़ (लेगसी मियादी जमा) है और दिनांक 31.03.2024 तक के अनुसार निवेश के रूप में अभिरक्षक (कस्टोडियन) सहित निधि ₹136604.46 करोड़ है। निवेश क.रा. बी.(केंद्रीय नियमावली), 1950 के नियम 27 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) के उपबंध तथा विधिवत रूप से अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार किया गया है। |
| 1.14 | दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 161वीं बैठक में अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 3 के संबंध में लिए गए निर्णयानुसार पूंजी निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) के निवेश पर ब्याज को राजस्व आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। |
| 1.15 | तुलन-पत्र में निवेश को लागत मूल्य/सौदा मूल्य पर दर्शाया गया है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य में किसी अंतर को निवेश आय में शामिल किया जाता है जो नए निवेश के मूल्य को प्रभावित करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम पूल पर निवेश का अनुरक्षण कर रहा है तथा ब्याज और लाभांश में किसी भी प्रकार के परिवर्धन और विलोप को उसी समय पुनर्निवेश किया जाता है। |
| 1.16 | लेखाकरण मानक 10 के अनुसार कार्यालय भवनों और स्टाफ आवास के लिए आरक्षित निधि मूल्यह्रास में विशेष मरम्मत की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के कारण ₹34.23 करोड़ की राशि को राजस्व आय में दिखाया गया है। |
| 1.17 | ₹3045.25 करोड़ का प्रशासनिक व्यय(क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय/राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी) कुल राजस्व आय का 10.60: बनता है। इसमें ₹1444.83 करोड़ कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशनभोगी चिकित्सा योजना की देयता का प्रावधान शामिल है। |
| | लेखागत भुगतान: |
| 1.18 | बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा देखभाल पर व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(3) के उपबंधों के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकार के बीच 7:1 अनुपात में बांटा जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 90% अंश का भुगतान प्रत्येक वर्ष अप्रैल (45%) और अक्टूबर (45%) में वर्ष में दो बार 'लेखागत भुगतान' के माध्यम से अग्रिम रूप में राज्य सरकार को किया जाता है। शेष 10% राशि का भुगतान लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर 'पूर्ण और अंतिम' समायोजन के समय किया जाता है जो अनुसूची-7 "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" के अंतर्गत "लेखागत देय" के अंतर्गत दर्शाया जाता है। |
| 1.19 | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धारा 45ए के अंतर्गत 20 कालातीत मामलों की अनंतिम राशि ₹3.35 लाख है। |

Annual Accounts 2024-2025



| | |
|------|--|
| 1.12 | Consolidated investment of ESIC Fund in done for Earmarked and Non-earmarked funds. Interest earned on total investment is allocated among the funds on the basis of opening balance of the fund for the financial year except for ESIC Provident Fund. Interest allocation to ESIC Provident Fund is done on the basis of actual interest credited to subscriber's GPF account for the year. Excess of GPF interest credited to Subscribers account over interest allocated is transferred from General Reserve Fund and vice-versa. |
| 1.13 | The total investment of ESIC as on 31.03.2025 stands at ₹ 160572.76 crore, out of which investment in Special Deposit Account is ₹ 23922.29 crore and in fixed deposit with schedule commercial Banks is ₹ 46.01 crore (Legacy FD) and Funds with custodian in the form of investment as on 31.03.2025 is ₹ 136604.46 crore. Investment is done in accordance with provision of section 29(2) of the ESI Act, 1948, read with Rule 27 of ESI (Central Rules), 1950 and duly approved investment policy. |
| 1.14 | Interest on investment of Capital Construction Reserve Fund (CCRF) has been accounted for as Revenue Income as per decision taken in 161st meeting of ESI Corporation held on 14th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 3. |
| 1.15 | Investments in the Balance sheet are shown on cost price/deal value. Any difference in face value and cost price is subsumed in the yield of the investment that effect the value of fresh investment. ESIC is maintaining investment on pool and any addition and deletion in the form of interest and dividend is reinvested at the same time. |
| 1.16 | An amount of ₹ 34.23 crore is charged to Revenue Income because of excess recoupment of Special Repairs in depreciation Reserve Fund for Office Buildings and Staff Quarters as per Accounting standard 10. |
| 1.17 | Administrative Expenses of (RO/SRO/HQ/NTA) ₹ 3045.25 crore works out as 10.60 % of the Total Revenue Income. This includes ₹ 1444.83 crore towards provision of liability of Employee's Benefit Reserve Fund - Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioner's Medical Scheme. |
| | On Account Payment :- |
| 1.18 | The expenditure on medical care to insured persons and members of their family is shared between ESIC and State Govt. under provision of Section 58(3) of ESI Act in the ratio of 7:1. 90% of ESIC share is being paid to State Govt. in advance through 'On Account' payment biannually in April (45%) and October (45%) every year. Remaining 10% is released at the time of 'full & final' settlement on receipt of audit certificates which is reflected under "On Account payable" under Schedule-7 " Current Liabilities and Provisions" |
| 1.19 | The tentative amount of time barred cases u/s 45 A for the financial year 2024-25 is ₹ 3.35 lakh involving 20 cases. |



वार्षिक लेखे 2024-2025

| | |
|------|---|
| 1.20 | वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं हुआ। |
| 1.21 | निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹20511.70 करोड़ की अंशदान आय प्राप्त हुई और इसमें से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वसूली कार्यवाही/चूककर्ता कार्रवाई के परिणामस्वरूप वसूल की गई राशि ₹251.03 करोड़ है, जो 2024-25 से पहले की अंशदान अवधि से संबंधित है। |
| 1.22 | क्षेत्रीय लेखा इकाइयों द्वारा गलत वर्गीकरण के कारण कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम और मोटर कार अग्रिम ऋणात्मक शेष दर्शा रहा है। इन शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकरण के प्रयास जारी हैं। |
| 1.23 | कोविड-19 महामारी के फैलने पर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में अधिग्रहित किया गया था। इन अस्पतालों को चिकित्सकों और कर्मचारियों सहित सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ अधिग्रहित किया गया था। कोविड से संबंधित उपचार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्य राशि को अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी वसूली नहीं की गई। |
| 1.24 | अनुसूची-8 (आरक्षित परिसंपत्तियाँ) तथा अनुसूची-1 (पूँजीगत आरक्षित) में ₹1.00 की दर से ओ.बी.एस. परिसंपत्तियां प्रारंभिक परिसंपत्तियां दर्शाती हैं जिन्हें मार्च, 2012 तक नकद आधार पर लेखाकरण में राजस्व खर्च के रूप में दर्ज किया गया है, वर्ष 2012-13 के दौरान नकद आधार पर लेखाकरण से प्रोद्भूत आधार पर लेखाकरण तक, अंतरण करते समय प्रारंभिक तुलन-पत्र (ओबीएस) में ₹1.00 प्रति परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है जो कि क.रा.बी.निगम की लेखाकरण नीति के अनुसार अनुमोदित है। |
| | सामान्य भविष्य निधि |
| 1.25 | सामान्य भविष्य निधि खाता तथा वार्षिक खाता के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि शेष के बीच अंतर, वर्ष 2012-13 में लेखाकरण के नकद आधार से प्रोद्भूत आधार पर आने (स्विच करने) के समय उत्पन्न हुए अंतर को दर्शाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान मार्च, 2013 के वेतन हेतु प्रावधान का लेखाकरण, सामान्य भविष्य निधि कटौती सहित मार्च, 2013 में किया गया था जबकि सामान्य भविष्य निधि खाता में वास्तविक सामान्य भविष्य निधि प्रविष्टि (पोस्टिंग) अप्रैल, 2013 में की गई। |
| 1.26 | वर्ष 2024-2025 के दौरान, पीएफआरडीए से 9 कर्मचारियों के संबंध में निधियां प्राप्त हुई थीं, इन्होंने नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) से पुरानी पेंशन योजना में प्रवास का प्रयोग किया है। इसके कारण, क.रा.बी.निगम ने ₹64.26 लाख के सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर ₹40.49 लाख की ब्याज देयता निर्धारित की है, जिसे ऐसे मामलों में सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है। |
| 1.27 | वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों से प्राप्ति योग्य किराया (किराए का 1/8 हिस्सा): ₹69.94 करोड़ है जिसे अनुसूची-18 में 'किराया, दरें और कर', 'अन्य आय' के रूप में दर्शाया गया है। |
| 1.28 | दिनांक 31.03.2024 तक अंशदान तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली के लिए ₹6082.16 करोड़ की राशि शेष है जिसमें से विभिन्न कारणों से वर्तमान देय के लिए ₹3738.09 करोड़ वसूली योग्य नहीं है। तथा शेष राशि ₹ 2344.07 करोड़ वसूली योग्य है। ब्यारे नीचे दिए गए हैं :- |

Annual Accounts 2024-2025



| | |
|------|--|
| 1.20 | No Fraud case has been reported during the F.Y 2024-25 |
| 1.21 | The Corporation has received the Contribution Income of ₹ 20511.70 Crore during financial year 2024-25 and out of which an amount recovered as a result of recovery proceeding/defaulters action during the financial year 2024-25 is ₹ 251.03 crore pertains to contribution periods prior to 2024-25. |
| 1.22 | Advances of Pay on Transfer of employees and Motor Car Advance is showing negative balance due to misclassification by field accounting units. Efforts for classification under these heads are undergoing. |
| 1.23 | On the outbreak of pandemic COVID-19, the Hospitals of ESIC were acquired by State Governments/UTs as dedicated COVID19 hospital under the provisions of Disaster Management Act 2005. These hospitals were acquired along with all infrastructure & amenities including doctors & staff. Amount due from State/UTs for COVID related treatment was booked under Other receivables. No recovery has been made during the financial year 2024-25. |
| 1.24 | Assets in OBS @ ₹ 1.00 in Schedule- 8 (Fixed Assets) and Schedule-1 (Capital Reserve) represents opening assets, booked as revenue expenditure in cash basis of accounting up to March, 2012, booked at ₹ 1.00 per assets in Opening Balance Sheet (OBS) during 2012-13 at the time of switching from cash basis of accounting to accrual basis of accounting as per approved accounting policy of ESIC. |
| | GPF |
| 1.25 | The difference between GPF balance as per GPF Accounts and Annual Accounts represents difference arisen at the time of switching from cash basis to accrual basis of accounting in the year 2012-13. During the year 2012-13 accounting of provision for Salary of March, 2013 was done in March, 2013 along with GPF deductions where as actual GPF posting in GPF Accounts in April, 2013. |
| 1.26 | During the year 2024-25, funds in respect of 9 employees were received from PFRDA, those have exercised migration from New Pension Scheme (NPS) to old pension scheme. On account of this, ESIC has determined the interest liability of ₹ 40.49 lakhs on GPF contribution of ₹ 64.26 lakh, which have been transferred in the General Provident Fund Account in such cases. |
| 1.27 | Rent receivable from states (1/8 share of rent) for the year 2024-25 is ₹ 69.94 crores. The same is shown under "Rent, Rates and Taxes" in schedule-18, "Other Income". |
| 1.28 | An amount of ₹ 6082.16 crores is outstanding for recovery of arrears of contribution and interest as on 31.03.2025 out of which ₹ 3738.09 crore is not recoverable for the present due to various reasons and the remaining amount ₹ 2344.07 Crore is recoverable dues. The details are as below:- |



वार्षिक लेखे 2024-2025

| वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि | ₹ करोड़ में |
|---|-----------------|
| क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि | 1,881.54 |
| ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि | 667.35 |
| ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि | 17.10 |
| घ) बंद तथा जिन नियोक्ता का अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि | 882.73 |
| ड) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई, पर निष्पादित नहीं की गई है | 1.79 |
| कुल क | 3,450.51 |
| रुग्ण उद्योगों से देय राशि | |
| उन कारखानों/स्थापनाओं से संबंधित मामले जो बी.आइ.एफ.आर./एन.सी.एल.टी. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है। | 203.55 |
| कारखाने/स्थापनाएं जो रुग्ण घोषित की गई हैं लेकिन पुनर्वास योजना मंजूर कर दी गई है। | 84.03 |
| कुल ख | 287.58 |
| दिनांक 31.03.2025 तक के अनुसार वसूली योग्य देय राशि | |
| क) नियोक्ताओं का पता-ठिकाना पता है परंतु इकाई बंद है। | 176.10 |
| ख) वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि | 2,167.97 |
| कुल ग | 2,344.07 |
| कुल योग (क+ख+ग) | 6,082.16 |

Annual Accounts 2024-2025



सत्यमेव जयते

| Arrears not recoverable for the present | ₹ in crores |
|---|--------------------|
| a) Amount of arrears disputed in courts | 1,881.54 |
| b) Amount under liquidation. | 667.35 |
| c) Amount pending with claim commissioner | 17.10 |
| d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known. | 882.73 |
| e) Amount for which decree obtained but not executed | 1.79 |
| TOTAL A | 3,450.51 |
| Dues from sick industries | |
| i) Cases in respect of Factories/Estts. registered with BIFR/ NCLT but rehabilitation scheme yet to be sanctioned | 203.55 |
| ii) Factories/Establishments which have been declared sick but rehabilitation scheme has been sanctioned. | 84.03 |
| TOTAL B | 287.58 |
| Recoverable dues as on 31.03.2025 | |
| a) Employers whereabouts known but unit is closed | 176.10 |
| b) Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer | 2,167.97 |
| TOTAL C | 2,344.07 |
| GRAND TOTAL (A+B+C) | 6,082.16 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

| | |
|----------|--|
| 2 | आकस्मिक देयताएं |
| 2.1 | विप्रो बनाम क.रा.बी. निगम के मामले में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात क.रा.बी.निगम ने दिनांक 10.02.2019 के मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में क.रा.बी.नि. ने दिनांक. 24.08.2022 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास 100: मध्यस्थता राशि रु. 5,53,15,19,748 /- रुपये जमा कर दी है। वर्तमान में, मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के तहत विचाराधीन है। |
| 2.2 | क.रा.बी.निगम के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में दर्ज नहीं किया गया—राजस्व मामलों के लिए क.रा. बी.निगम के विरुद्ध मामलों की राशि 315.13 करोड़ है जिसमें 1678 मामले शामिल हैं। |
| 3 | पूँजीगत प्रतिबद्धताएं |
| 3.1 | दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार गैर-निष्पादित पूंजी अनुबंध की राशि ₹ 9658.72 करोड़ है। |
| 4 | विदेशी मुद्रा लेन-देन |
| 4.1 | वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विदेशी मुद्रा में ₹1.06 करोड़ व्यय किए गए हैं। |
| 5 | अनुसूचियाँ |
| | अनुसूची 1 से 26 तक संलग्न हैं तथा 31 मार्च 2025 तक के तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का अभिन्न अंग हैं। |
| 6 | संख्याएँ करोड़ रुपये के निकटतम गुणज में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित की गई हैं। |



| | |
|----------|--|
| 2 | CONTINGENT LIABILITIES |
| 2.1 | In respect of WIPRO Vs ESIC case, ESIC after approval of the Competent Authority has moved to Hon'ble Delhi High Court against the arbitral award dated 10.02.2019. Thereafter, ESIC has deposited 100% arbitral award amount of ₹ 5,53,15,19,748/- by 24.08.2022 with the Registrar General of Hon'ble Delhi High Court in compliance with direction of Hon'ble Delhi High Court after taking approval from competent authority. The present status of the case in Hon'ble Delhi High Court is under trial. |
| 2.2 | Claims against ESIC not acknowledged as Debt - Cases filed against ESIC for revenue matters is amounting to ₹ 315.13 crore involving 1678 cases. |
| 3 | CAPITAL COMMITMENTS |
| | Capital Contract remains unexecuted as on 31st March 2025 amounts to ₹ 9658.72 crore. |
| 4 | FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS |
| | Amounting to Rs. 1.06 Crore has been incurred in foreign currency during the financial year 2024-25. |
| 5 | SCHEDULES |
| | Schedule 1 to 26 are annexed to and form integral part of the Balance Sheet as on 31st March 2025 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date. |
| 6 | Figures are rounded off to the nearest multiple of Rupees in crores upto two decimal places. |



वार्षिक लेखे 2024-2025

अनुसूची 26 - पूर्वावधि मदे

₹ करोड़ में

| विवरण | 2024-25 | 2023-24 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| क) पूर्वावधि आय | (219.67) | 68.17 |
| ख) पूर्वावधि खर्च | (4.94) | 0.64 |
| कुल | (214.73) | (67.54) |

नोट रू ऋणात्मक आंकड़े कुल पूर्वावधि व्यय को संदर्भित करते हैं एवं कुल पूर्वावधि व्यय भी ऋणात्मक आंकड़ों को संदर्भित करते हैं।



Schedule 26 – Prior Period Items

₹ in crore

| Particulars | 2024-25 | 2023-24 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| a) Prior Period Income | (219.67) | 68.17 |
| b) Prior Period Expenditure | (4.94) | 0.64 |
| Total | (214.73) | (67.54) |

Note:

1) Negative figure represent Net Prior period expenditure and vice versa

निवेश - उददिष्ट आरक्षित निधियां

₹ करोड़ में

संलग्नक - 1

| क्रम सं. | विवरण उददिष्ट निधियां | अथ शेष 01.04.2024 | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | | | निधि का अंतरण | निधि से भुगतान | वर्ष के दौरान निवल परिवर्धन | दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेष |
|----------|--|-------------------|---------------------------|----------------|--|---------------|----------------|-----------------------------|---|
| | | | प्रावधान / प्राप्तियां | निवेश पर ब्याज | सामान्य आरक्षित / अन्य प्राप्तियां से स्थानांतरण | | | | |
| | क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज=(ग+घ+ङ-च-छ) | झ=(ख+ज) |
| 1 | स्थायी निःशुक्ता हितलाभ आरक्षित निधि | 10,822.73 | 1,236.46 | 802.94 | - | - | 490.02 | 1,549.38 | 12,372.11 |
| 2 | आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि | 7,726.48 | 2325.26 | 573.23 | - | - | 556.12 | 2,342.36 | 10,068.84 |
| 3 | क.रा.बी. निगम - कोविड-19 राहत योजना निधि | 861.29 | 1,055.86 | 63.90 | - | - | 71.22 | 1,048.55 | 1,909.84 |
| 4 | कार्यालय भवनों एवं स्टाफ आवासों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि | - | 7.41 | - | 34.23 | - | 41.64 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अस्पताल भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि | 1,558.07 | 93.22 | 115.59 | - | - | 172.88 | 35.93 | 1,594.00 |
| 6 | अन्य परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि | 3,413.36 | 436.08 | 253.24 | - | - | - | 689.32 | 4,102.68 |
| 7 | चिकित्सा शिक्षा भवनों के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि | 1,311.39 | 171.00 | 97.29 | - | - | 0.03 | 268.26 | 1,579.65 |
| 8 | कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि- पेंशन | 12,060.42 | 1,856.29 | 894.76 | 0.55 | - | 647.26 | 2,104.34 | 14,164.76 |
| 9 | कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - उपदान | 1,064.51 | 518.43 | 78.98 | - | - | 62.76 | 534.65 | 1,599.16 |
| 10 | कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - छुट्टी नकदीकरण | 1,130.49 | 690.97 | 83.87 | - | - | 37.26 | 737.57 | 1,868.06 |
| 11 | कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि- पी.एम.एस. | 181.67 | 13.39 | 13.48 | 2.74 | - | 24.37 | 5.23 | 186.90 |
| 12 | क.रा.बी.नि. भविष्य निधि | 1,248.27 | 127.15 | 83.88 | - | - | 214.88 | (3.86) | 1,244.41 |
| | कुल | 41,378.68 | 8,531.52 | 3,061.15 | 37.51 | - | 2,318.44 | 9,311.74 | 50,690.42 |



सत्यमेव जयते

Investment – Earmarked Reserve Funds

₹ in crore

Annexure-I

| SL. No. | Particulars Earmarked Funds | Opening Balance 01.04.2024 | Receipts during the year | | | Transfer the fund | Payment from the fund | Net addition during the year | Balance as on 31.03.2025 |
|---------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | Provision / Receipts | Interest on Investment | Transfers from General Reserve/ Other receipt | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I= (B+H) |
| | | | | | | | | = (C+D+E-F-G) | |
| 1 | Permanent Disablement Benefit Reserve Fund | 10,822.73 | 1,236.46 | 802.94 | - | - | 490.02 | 1,549.38 | 12,372.11 |
| 2 | Dependent's Benenfit Reserve Fund | 7,726.48 | 2325.26 | 573.23 | - | - | 556.12 | 2,342.36 | 10,068.84 |
| 3 | ESIC Covid-19 Relief Scheme Reserve Fund | 861.29 | 1,055.86 | 63.90 | - | - | 71.22 | 1,048.55 | 1,909.84 |
| 4 | Depreciation Reserve Fund of Office buildings and Staff quarters | - | 7.41 | - | 34.23 | - | 41.64 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Depreciation Reserve Fund of hospital buildings | 1,558.07 | 93.22 | 115.59 | - | - | 172.88 | 35.93 | 1,594.00 |
| 6 | Depreciation Reserve Fund of other Assets | 3,413.36 | 436.08 | 253.24 | - | - | - | 689.32 | 4,102.68 |
| 7 | Depreciation reserve fund for Medical Education Building | 1,311.39 | 171.00 | 97.29 | - | - | 0.03 | 268.26 | 1,579.65 |
| 8 | Employees Benefit Reserve Fund-Pension | 12,060.42 | 1,856.29 | 894.76 | 0.55 | - | 647.26 | 2,104.34 | 14,164.76 |
| 9 | Employees Benefit Reserve Fund-Gratuity | 1,064.51 | 518.43 | 78.98 | - | - | 62.76 | 534.65 | 1,599.16 |
| 10 | Employees Benefit Reserve Fund-Leave Encashment | 1,130.49 | 690.97 | 83.87 | - | - | 37.26 | 737.57 | 1,868.06 |
| 11 | Employees Benefit Reserve Fund-P M S | 181.67 | 13.39 | 13.48 | 2.74 | - | 24.37 | 5.23 | 186.90 |
| 12 | ESIC Provident Fund | 1,248.27 | 127.15 | 83.88 | - | - | 214.88 | (3.86) | 1,244.41 |
| | Total | 41,378.68 | 8,531.52 | 3,061.15 | 37.51 | - | 2,318.44 | 9,311.74 | 50,690.42 |



सत्यमेव जयते



वार्षिक लेखे 2024-2025

निवेश - गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधियां

संलग्नक - II

₹ करोड़ में

| क्र.सं. | विवरण | अथ शेष 01.04.2024 | वर्ष के दौरान निवेश | सीसीआरएफ/ अन्य निधियों से अंतरण | उद्दिष्ट निधियों में अंतरण | वर्ष के दौरान निवल जोड़ | दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तक शेष |
|---------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | क | ख | ग | घ | ङ | च=(ग+घ-ङ) | छ=(ख+च) |
| I | सामान्य आरक्षित निधि | 1,02,235.94 | 12,025.61 | 784.75 | 9,311.74 | 3,498.63 | 1,05,734.57 |
| | कुल क | 1,02,235.94 | 12,025.61 | 784.75 | 9,311.74 | 3,498.63 | 1,05,734.57 |
| क्र.सं. | विवरण | अथ शेष 01.04.2024 | वर्ष के दौरान प्रावधान | अन्य निधियों से अंतरण | निधि से भुगतान | सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित निवल जोड़ | दिनांक 31.03.2025 तक शेष |
| | क | ख | ग | घ | ङ | च=(ङ-ग) | छ=(ख-च) |
| II | आकस्मिकता आरक्षित निधि | 75.00 | - | - | - | - | 75.00 |
| III | पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि | 4,857.53 | 205.12 | - | 989.87 | 784.75 | 4,072.78 |
| | कुल ख | 4,932.53 | 205.12 | - | 989.87 | 784.75 | 4,147.78 |
| | कुल योग (क+ख) | 1,07,168.47 | | | | | 1,09,882.34 |



सत्यमेव जयते

Investment – Non Earmarked Reserve Funds

Annexure-II

₹ in crore

| Sl. No. | Particulars | Opening Balance 01.04.2024 | Investment during the year | Transfers From CCRF/ Other Funds | Transfer to Earmarked Funds | Net addition during the year | Balance as on 31.03.2025 |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| | a | b | c | d | e | f = (c+d-e) | g = b+f |
| I | General Reserve Fund | 1,02,235.94 | 12,025.61 | 784.75 | 9,311.74 | 3,498.63 | 1,05,734.57 |
| | Total A | 1,02,235.94 | 12,025.61 | 784.75 | 9,311.74 | 3,498.63 | 1,05,734.57 |
| Sl. No. | Particulars | Opening Balance 01.04.2024 | Provision During the year | Transfers From Other Funds | Payments from the fund | Net Addition transferred to General Reserve Fund | Balance as on 31.03.2025 |
| | a | b | c | d | e | f = (e-c) | g = b-f |
| II | Contingency Reserve Fund | 75.00 | - | - | - | - | 75.00 |
| III | Capital Construction Reserve Fund | 4,857.53 | 205.12 | - | 989.87 | 784.75 | 4,072.78 |
| | Total B | 4,932.53 | 205.12 | - | 989.87 | 784.75 | 4,147.78 |
| | Grand Total (A+B) | 1,07,168.47 | | | | | 1,09,882.34 |



वार्षिक लेखे 2024-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि 31 मार्च, 2025 तक सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) प्राप्तियां एवं भुगतान

₹ करोड़ में

| प्राप्तियां | राशि | भुगतान | राशि |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. अथ शेष | 1,234.30 | 1. अभिदाता को किया गया भुगतान | 214.26 |
| 2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां | 128.71 | 2. अंत शेष | 1,232.63 |
| 3. जमा किया गया ब्याज | 83.88 | | |
| 4. घटाएं : अदावाकृत जमाओं में अंतरित राशि | - | | |
| कुल | 1,446.89 | | 1,446.89 |

₹ करोड़ में

| विवरण | सामान्य भविष्य निधि खातों के अनुसार | क.रा.बी.नि. खातों के अनुसार | अंतर |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| अथ शेष 01.04.2024 (क) | 1,234.30 | 1,248.27 | (13.97) |
| प्राप्ति 2024-2025 (ख) | 128.71 | 127.15 | 1.56 |
| ब्याज 2024-2025 (ग) | 83.88 | 83.88 | - |
| उप योग घ = (क+ख+ग) | 1,446.89 | 1,459.30 | (12.41) |
| भुगतान 2024-25 (ङ) | 214.26 | 214.88 | (0.62) |
| अंत शेष 31.03.2025 (घ-ङ) | 1,232.63 | 1,244.41 | (11.78) |



ESI CORPORATION PROVIDENT FUND G P F RECEIPTS AND PAYMENTS AS ON 31ST MARCH, 2025

₹ in Crore

| RECEIPTS | AMOUNT | PAYMENTS | AMOUNT |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. Opening Balance | 1,234.30 | 1. Payment to the subscribers | 214.26 |
| 2. Receipt during the year | 128.71 | 2. Closing Balance | 1,232.63 |
| 3. Interest credited | 83.88 | | |
| 4. Less: Amount transferred to Unclaimed Deposits | - | | |
| TOTAL | 1,446.89 | TOTAL | 1,446.89 |

₹ in Crore

| PARTICULARS | As Per GPF Accounts | As per ESIC Accounts | Difference |
|---|---------------------|----------------------|----------------|
| Opening Balance 1.4.2024 (A) | 1,234.30 | 1,248.27 | (13.97) |
| Receipt 2024-25 (B) | 128.71 | 127.15 | 1.56 |
| Interest 2024-25(C) | 83.88 | 83.88 | - |
| Sub Total D (A + B + C) | 1,446.89 | 1,459.30 | (12.41) |
| Payment 2024-25(E) | 214.26 | 214.88 | (0.62) |
| Closing Balance 31.03.2025 (D - E) | 1,232.63 | 1,244.41 | (11.78) |



सत्यमेव जयते



वार्षिक लेखे 2024-2025

वर्ष 2024-2025 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

₹ करोड़ में

| प्राप्तियाँ | 2024-25 | 2023-24 | भुगतान | 2024-25 | 2023-24 |
|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| I अथ शेष | | | I व्यय | | |
| क) नकद रोकड | 0.02 | 0.02 | क) बीमाकृत व्यक्तियों के हितलामों पर खर्च (अनुसूची 20 के तदनुक्रम) | 15,008.38 | 12,903.52 |
| ख) बैंक शेष | - | - | ख) स्थापना खर्च (अनुसूची 21 के तदनुक्रम) | 1,789.36 | 1,426.78 |
| I) चालू खातों में | - | - | ग) अन्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 22 के तदनुक्रम) | 497.13 | 484.13 |
| ii) जमा खातों में | - | - | II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के संबंध में किए गए भुगतान | - | - |
| iii) बचत खाते | 59.00 | 32.99 | III किए गए निवेश और जमा | - | - |
| ग) धन प्रेषण | - | - | क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश | 46,574.06 | 44,150.99 |
| II प्राप्त किए गए अनुदान | - | - | IV स्थायी परिसंपत्ति पर खर्च और पूंजीगत कार्य की प्रगति | - | - |
| क) भारत सरकार से | - | - | क) स्थायी परिसंपत्ति की खरीद | 91.87 | 15.89 |
| ख) राज्य सरकार से | - | - | ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर खर्च | 989.87 | 1,050.74 |
| ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए) | - | - | V अधिशेष धन / ऋण की वापसी | - | - |
| III निवेश से आय | - | - | क) भारत सरकार को | - | - |
| क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश | 11,043.73 | 9,989.90 | ख) राज्य सरकार को | - | - |
| IV प्राप्त किए गए ब्याज | - | - | ग) अन्य निधि प्रदाताओं को | - | - |
| क) बैंक में जमा राशियों पर | 15.15 | 12.06 | VI वित्त प्रभार (ब्याज) | - | - |
| ख) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम | 0.09 | 0.10 | VII अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट) | - | - |
| V निवेश-परिपक्वता | 34,548.44 | 31,601.80 | क) विशेष मरम्मत एवं अनुसंधान | 136.27 | 62.82 |
| VI आय-अंशदान | 20,255.35 | 18,836.17 | ख) तृतीय पक्ष अग्रिम | 790.52 | 688.88 |
| VII उधार राशि | - | - | ग) कर्मचारी अग्रिम | 23.59 | 13.12 |
| VIII कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें) | - | - | घ) प्रतिभूतियां एवं अन्य जमा राशियां | 71.76 | 61.97 |
| क) जमा (प्रतिभूति/ बचाना जमा/ विविध) | 76.12 | 71.94 | ङ) पूर्व अवधि में | (1.76) | (0.31) |
| ख) विक्रिता शिक्षा प्राप्तियां | 86.77 | 65.67 | च) कर्मचारी हितलाम (सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, जीएसएलआईएस इत्यादि) | 668.87 | 613.53 |
| ग) कर्मचारी हितलाम निधि (पेंशन अंशदान, पीएमएस प्राप्ति इत्यादि) | 585.04 | 561.53 | छ) सांविधिक देय राशि एवं अन्य कटौतियां | (3.20) | (7.63) |
| घ) अन्य आय | 180.02 | 461.12 | VIII अंत शेष | - | - |
| | - | - | क) नकद रोकड | 0.02 | 0.02 |
| | - | - | ख) बैंक शेष | - | - |
| | - | - | I) चालू खातों में | - | - |
| | - | - | ii) जमा खातों में | - | - |
| | - | - | iii) बचत खाते | 110.93 | 59.00 |
| | - | - | ग) धन प्रेषण | 102.08 | 109.85 |
| कुल | 66,849.74 | 61,633.30 | कुल | 66,849.74 | 61,633.30 |

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2024-25

₹ in crore

| RECEIPTS | 2024-25 | 2023-24 | PAYMENTS | 2024-25 | 2023-24 |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| I. Opening Balance | | | I. Expenses | | |
| a) Cash in hand | 0.02 | 0.02 | a) Expenditure On Benefits To Insured Persons (corresponding to Schedule 20) | 15,008.38 | 12,903.52 |
| b) Bank Balances | - | - | b) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 21) | 1,789.36 | 1,426.78 |
| i) In current accounts | - | - | c) Other Administrative Expenses (corresponding to Schedule 22) | 497.13 | 484.13 |
| ii) In deposit accounts | - | - | II. Payments made against funds for various projects | - | - |
| iii) Savings accounts | 59.00 | 32.99 | III. Investments and Deposits made | - | - |
| c) Remittances | - | - | Investments of ESIC Funds | 46,574.06 | 44,150.99 |
| II. Grants Received | - | - | IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in- Progress | | |
| a) From Government of India | - | - | a) Purchase of Fixed Assets | 91.87 | 15.89 |
| b) From State Government | - | - | b) Expenditure on Capital Work-in-progress | 989.87 | 1,050.74 |
| c) From other sources (details) (Grants for capital & Revenue exp. To be shown separately) | - | - | V. Refund of surplus money/Loans | - | - |
| III. Income on Investments from | | | a) To the Government of India | - | - |
| Investments of ESIC Funds | 11,043.73 | 9,989.90 | b) To the State Government | - | - |
| IV. Interest Received | | | c) To other providers of funds | - | - |
| a) On Bank deposits | 15.15 | 12.06 | VI. Finance Charges (Interest) | - | - |
| b) Employees' Loans & Advances | 0.09 | 0.10 | VII. Other Payments (Specify) | | |
| V. Investment-Maturity | 34,548.44 | 31,601.80 | a) Special Repair & Maintenance | 136.27 | 62.82 |
| VI. Income - Contribution | 20,255.35 | 18,836.17 | b) Third Party Advances | 790.52 | 688.88 |
| VII. Amount Borrowed | - | - | c) Employees' Advance | 23.59 | 13.12 |
| VIII. Any other receipts (give details) | | | d) Securities & Other Deposits | 71.76 | 61.97 |
| a) Deposits (Security /EMD/Misc.) | 76.12 | 71.94 | e) Prior Period Items | (1.76) | (0.31) |
| b) Medical Education Receipts | 86.77 | 65.67 | f) Employees Benefit (GPF ,NPS,GSIJSetc.) | 668.87 | 613.53 |
| c) Employees Benefit Fund (Pension Contribution, PMS Receipt etc.) | 585.04 | 561.53 | g) Statutory Dues & other deduction | (3.20) | (7.63) |
| d) Other Income | 180.02 | 461.12 | VIII. Closing Balances | | |
| | - | - | a) Cash in hand | 0.02 | 0.02 |
| | - | - | b) Bank Balances | - | - |
| | - | - | i) In current accounts | - | - |
| | - | - | ii) In deposit accounts | - | - |
| | - | - | iii) Savings accounts | 110.93 | 59.00 |
| | - | - | c) Remittances | 102.08 | 109.85 |
| Total | 66,849.74 | 61,633.30 | Total | 66,849.74 | 61,633.30 |

Annual Accounts 2024-2025



सत्यमेव जयते





वार्षिक लेखे 2024-2025

फाइल संख्या- F/12/14/1/2024-25/लेखा-1

दिनांक: 30-05-2025

शुद्धिपत्र

वार्षिक लेखा 2024-2025 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

| क्र. सं | वर्तमान | संशोधन इस प्रकार पढ़ा जाए |
|---------|---|---|
| 1. | अनुसूची 22- अन्य प्रशासनिक व्यय ₹ करोड़ में विवरण (xix) घाटे | अनुसूची 22- अन्य प्रशासनिक व्यय ₹ करोड़ में विवरण (xix) निवेश पर अंकित मूल्य और सौदे के मूल्य में अंतर के कारण होने वाले घाटे/व्यय |
| 2. | नोट: (xix) वर्ष के दौरान घाटे में लेखांकन इकाइयों द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान तथा वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले निवेश पर प्राप्त मूल्य (अंकित मूल्य) एवं खरीद मूल्य (सौदा मूल्य) के बीच का अंतर शामिल है। | नोट: (xix) घाटे/व्यय में वर्ष के दौरान लेखांकन इकाइयों द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान एवं वर्ष के दौरान परिपक्व हुए निवेश पर प्राप्त मूल्य (अंकित मूल्य) और खरीद मूल्य (सौदा मूल्य) के बीच अंतर के कारण व्यय शामिल है। |

(अक्षय गुप्ता)
उप निदेशक

Annual Accounts 2024-2025



सत्यमेव जयते

F.No. F/12/14/1/2024-25-A/Cs-1

Date 30-05-2025

CORRIGENDUM

Annual Accounts 2024-25 stands modified as detailed under:

| S. No. | Existing | To be read as |
|--------|---|---|
| 1. | Schedule 22 - Other Administrative Expenses ₹ In crores Particulars (xix) Losses | Schedule 22 - Other Administrative Expenses ₹ In crores Particulars (xix) Losses/Expenses on account of difference in face value and deal value on Investment. |
| 2. | Note: (xix) Losses includes loss on sale of assets by accounting units during the year and difference between realized value (face value) and purchase price (deal value) on investment matured during the year. | Note: (xix) Losses/expenses includes loss on sale of assets by accounting units during the year and expenses on account of difference between the realized value (face value) and purchase price (deal value) on investments that matured during the year. |

(Akshay Gupta)
Deputy Director



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110 002
Toll-Free No.1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839
Website: www.esic.gov.in, www.esic.in